

हमारे सन्त

डॉ० गोविन्द वल्लभ पंत-संग्रह

लेखक

श्री गधुवीरशरण 'मित्र'

एकमात्र वितरक :


भारतीय साहित्य प्रकाशन

२३२-स्वराज्य पथ, मदन मेरठ

प्रकाशक
अर्चना पुस्तक मन्दिर,
१६२— गंज बाजार,
सदर, मेरठ ।

प्रथम संस्करण
जानवरी १९५७
मूल्य २)

मुद्रक
श्री ३ न म
निष्ठा
मेरठ



गर्जाप श्री पूर्योत्तम दाम टण्डन


भारत और भारती के सूर्य

राजर्षि श्री पुरुषोत्तमदास टंडन

को

सादर समर्पित





हम सब कुछ खो बैठे थे, फिर भी अन्धकार में कुछ ऐसे दीपक जलते रहे जिनसे धरती पर अमर प्रकाश बरसता रहा है। स्वतन्त्रता, शान्ति और सत्य के जो मंगल स्वर भारतीय सन्तों की वाणी से निकले वे ही तो मानवता के उज्ज्वल दीप हैं। जन जागरण के जो भक्ति भाव हमारे सन्तों ने जन जन में गाये हैं वे हमारे सामाजिक, राष्ट्रीय और आध्यात्मिक उत्थान के मूलाधार हैं। उनकी भक्ति, उनकी तन्मयता, उनका त्याग, उनका तप मानव चरित्र विकास का वह सूर्य है जो अन्धकार को डसता रहता है।

भौतिकता के उद्वेग काल में आध्यात्मिकता की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कमल के लिए सूर्य की। आज के असन्तोष में हमारे सन्तों के स्वर ही सन्तोष दे सकते हैं, मानव को मानव के निकट ला सकते हैं। हिंसा, असत्य और अशान्ति को हटाने तथा दुई के स्थान पर एकता की ज्योति जगाने का काम हमारे सन्तों ने ही किया है।

अतः मानवता से दूर अतृप्ति में भटकते हुए मृग-भनुष्य को मैं अपने देश के कुछ प्रमुख सन्तों का सत्संग इस आशा से कराता हूँ कि अनीति, अनैतिकता और अशान्ति भक्ति भावना में बदल जाये।

—रघुवीरशरण 'मित्र'

क्रम	पृष्ठ
सन्त नामदेव	६
सन्त ज्ञानेश्वर	१८
सन्त कबीर	२५
सन्त गुरु नानक	३६
सन्त तुलसीदास	४४
सन्त दादू	५७
सन्त मलूकदास	६८
सन्त तुकाराम	७५
सन्त समर्थगुरु रामदास	८५
सन्त गाँधी	९३



हमारे सन्त



१

सन्त नामदेव

मानव में जब चेतना नहीं रहती तो परिक्रमा करती हुई कोई आवाज़ जागती है। धरा जब डगमगाने लगती है तो दिव्य-ज्योति-सम्भूत कोई न कोई शक्ति प्रकट होती है। परिस्थितियाँ जब प्रतिकूल हो जाती हैं तो किसी न किसी अनुकूल शक्ति के दर्शन होते हैं। भीतिकता जब भटक उठती है तो आध्यात्मिकता जन्म लेती है। नश्वरता जब वीभत्स नृत्य करती है तो शाश्वत सत्यों से अभिभूत किसी न किसी आशा का आगमन होता है।

भारतीय सन्त परम्परा में नामदेव कथित आदित्यों के ही मूर्त रूप हैं। प्रेम, अहिंसा, सत्य, शान्ति, त्याग, भक्ति, ज्ञान और नैतिकता के स्वरूप सन्त नामदेव भारत के स्वनामधन्य सन्त हैं। नामदेव के प्रभाव से तत्कालीन कितने ही यशस्वी मन्त्र हुए, एक प्रकार से वे भारतीय सन्त परम्परा के स्रोत हैं। उनके कीर्तनों से ही उन सन्तों का उदय हुआ जो मृत्यु में जीवन हैं। नामदेव से ही वह सन्त समागम शुरू होता है जो भारत का सबसे उज्ज्वल धन है।

जिस समय इनकी बीणा बजी वह समय भारतीय संस्कृति और धर्म पर आघातों का समय था। न कोई धर्म का स्थिर रूप था, न समाज किसी सुव्यवस्था में था, न राजनीतिक शान्ति थी, न मानसिक आनन्द था। विदेशी संस्कृति के आक्रमणों से मन्दिरों में

मूर्तियों की गर्दनें कटी पड़ी थीं, बलात् धर्म परिवर्तन शुरू हो गये थे। ईश्वर को मतभेदान्तरों में मिटाया जा रहा था, तलवार के बल से भारत माता की कोख फोड़ कर उसके हर उत्थान की हत्या के लिये खूनी तलवार का नंगा नाच था।

साधना के तीन अंग हैं— कर्म, ज्ञान और भक्ति। ये तीनों ही अंग विकृत हो चले थे। कर्म अर्थशून्य विधिविधानों से निकम्मा होने लगा था, ज्ञान रहस्य की विडम्बनाओं से पाखण्डपूर्ण हो चला था, और भक्ति इन्द्रियोपभोग की वासना से कलुषित की जाती थी। भक्ति का जन्म श्रद्धा और प्रेम से है, जहाँ उपासना में श्रद्धा का पूज्य भाव नष्ट हो केवल प्रेम रहा वहाँ भक्ति कोरी वासना रह जाती है।

अतः जब आपस की फूट से राजपूतों की तलवार देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा करती करती कुन्द हो गई और कामिनियों की निगाहों में डूबकर टकराती हुई सो गई तो भारत को उन महान सन्तों ने ही बचाया जो आपत्ति काल में सदैव बचाते रहे हैं।

सन्त नामदेव का आविर्भाव भी ऐसे ही आपत्ति काल में हुआ। नामदेव भक्ति का श्रेष्ठ एवं सरल स्वरूप लेकर खड़े हुए। एकेश्वरवाद के अनिश्चित स्वरूप को, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर जाता था और कभी पैगम्बरी खुदावाद की ओर दुलकता था, सन्त नामदेव ने एक सर्वग्राह्य सुव्यवस्थित स्वरूप दिया। जाति-पाति, भेद-भाव का त्याग और ईश्वर भक्ति के लिये मनुष्य मात्र को समान अधिकार दिलाने का सूत्रपात नामदेव से ही शुरू हुआ।

महाराष्ट्र के सन्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले लिया जाना

है। इनका जन्म वि० सम्वत् १३२७ कार्तिक शुक्ला ११ रविवार को ग्राम नरुसी बमनी जिला सतारा महाराष्ट्र में हुआ। ये जानि के छीपी थे, पिता का नाम श्री दामा शेट और माता का गोणार्ई था। इनके गुरु सिद्ध यशस्वी सन्त खेचरनाथ नाथपंथी योगमार्ग-प्रेरक श्री ज्ञानदेव जी महाराज रहे।

काल-परिस्थिति के अनुसार ये सगुणोपासक भी रहे और निर्गुणोपासक भी। पहले ये साकार पूजा करते थे, पर बाद में गुण ज्ञानदेव के संग से नाथपन्थियों द्वारा प्रचलित धर्म में लाये गये। वम यहीं से ये अन्तर्मुख साधना द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म से साक्षात्कार करने लगे।

नामदेव भगवान के वियोग में हर समय व्यग्र रहते थे। ज्ञानदेव इनको समझाते थे कि भगवान केवल एक ही जगह नहीं हैं, वह तो हर जगह हैं। वे तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं। यह मोह छोड़ो। तुम्हारी भक्ति अभी कच्ची है। जब तक तुम्हे निर्गुण पक्ष की अनुभूति नहीं होगी तब तक तुम पकोगे नहीं।

ज्ञानदेव समझा ही रहे थे कि परीक्षा भी शुरू हो गई। सिर मुंडाते ही ओले बरसने लगे। घूमते हुए जब ये एक गाँव में पहुँचे तो सन्तमण्डली पर एक कुम्हार घडा पीटने का पिटना लेकर पिल पड़ा और खूब प्रेम से साधुओं के सिरों की मरम्मत शुरू कर दी। जब तक सन्त ज्ञानदेव, उनकी साबु बहिन मुक्ताबाई और उनके दो अन्य साधु भाइयों के सिर पर डंडे पड़ते रहे, तब तक वे तो शान्ति से सहते रहे। पर जब सन्त नामदेव की खोपड़ी पर डंडा पड़ा तो वे अकड़ कर सामने खड़े हो गये और डंडा छीन लिया।

कुम्हार ने हँस कर कहा— “सब साधु पक्के, नामदेव कच्चे ।” मानो यही सन्त ज्ञानेश्वर का अपने शिष्य को गुरुमंत्र था । उस मंत्र को पाकर नामदेव कच्चे सन्त से पक्के सन्त हो गये ।

सन्त नामदेव के बचपन से ही चमत्कार प्रसिद्ध हैं । एक बार इनके पिता दामा सेठ घर से कहीं बाहर गये । वे विट्ठल भगवान् की पूजा का भार नामदेव को सौंप गये । नामदेव ने बड़े प्रेम से पूजा की और भगवान् के भोग को दूध का कटोरा भर कर मूर्ति के सामने रखा एवं अपने नेत्र बन्द कर लिये । जब नेत्र खोले तो देखा दूध वैसा ही कटोरा भरा रखा था । बालक ने सोचा कि भगवान् नाराज हैं जो दूध नहीं पीने । अतः उसने हठ करते हुए रोकर कहा— “हे भगवान् ! दूध पियो, शीघ्र पियो । नहीं तो मैं जीवन भर कभी भी दूध नहीं पीऊँगा ।”

बच्चे की प्रतिज्ञा सुनते ही मूर्ति मुखर हो उठी और गट गट दूध पी गई एवं फिर रोज नामदेव के हाथ से भगवान् दूध पीते रहे ।

एक बार सन्त नामदेव की कुटिया में एक ओर आग लग गई । आपने प्रेम विभोर होकर दूसरी ओर की वस्तुएँ भी अग्नि अर्पण करनी शुरू कर दीं, और मस्त होकर बोले— “स्वामी ! आज तो आप लाल लाल लपटों का रूप बनाये बड़े अच्छे पधारे, किन्तु एक ही ओर क्यों ? दूसरी ओर की इन वस्तुओं ने क्या अपराध किया है, जो इन पर आपकी कृपा नहीं हुई ? आप इन्हें भी स्वीकार करें ।”

नामदेव का यह कहना था कि अग्नि भगवान् को ठंडा पसीना आ गया, वे सन्त की आर्तवाणी सुनते ही शान्त हो गये । जो कुटिया जल गई थी वह भगवान् स्वयम् मजदूर बन कर बना गये ।

एक बार नामदेव जी किसी गाँव के वर्षों से बन्द सूने मकान में ठहरने लगे। लोगों ने मना किया और कहा— “इसमें एक भयकर भूत है, वह इस घर में ठहरने वाले कितने ही लोगों को खा चुका है। वह ब्रह्मराक्षस बड़ा खूनी है।”

इस पर नामदेव जी ने कहा— “मेरे विद्वल ही तो भूत भी बने होंगे।” और फिर उस मकान में अकेले ठहर गये।

आधी रात को वह भयकर भूत आया। उसका शरीर बड़ा भारी था। वह लम्बी चौड़ी विकराल प्रेतात्मा देख नामदेव जी भाव-मग्न होकर नृत्य करते और गाने लगे—

भले पधारे लम्बक नाथ !

धरनी पाँव, स्वर्ग लौ माथा, जोजन भरके लाँवे हाथ ।
शिव मन्कादिक पार न पावै, अनगित साज सजाये साथ ।
नामदेव के तुम ही स्वामी, कीजै प्रभु जी मोहि सनाथ ॥

भगवान् की भक्ति के सामने भला कहीं प्रेत का प्रेतत्व ठहर सकता है ! वह भयावनी आकृति शंख-चक्र-गदा-पद्मधारी श्री पाण्डुरंग जी में बदल गई। उस दिन से फिर उस घर में वह ब्रह्म-राक्षस नहीं रहा।

ऐसे ही एक बार नामदेव जी जंगल में रोटी बना रहे थे। रोटी बनाकर भोजन करने के हेतु लघुशंका आदि से निवृत्त होने गये। जब लौटते तो देवते क्या हैं कि एक कुत्ता मुँह में रोटी दबाये आगा जा रहा है। नामदेव जी घी की कटोरी लेकर उसके पीछे यह कहते हुए दौड़े— “प्रभु ! ये रोटियाँ रुखी हैं, घी लगा लेने दीजिये। फिर भोग लगाना।” इस भक्ति भावना से भगवान् उस

श्वान शरीर से ही प्रकट हुए और भक्त नामदेव उनके चरणों पर गिर पड़े।

एक बार जब ये सन्त ज्ञानेश्वर के साथ तीर्थयात्रा करने लौटे तो मार्ग में बीकानेर के पास कौलायत गाँव में एक कुएँ पर इन्हें प्यास लगी। भाँक कर देखा तो कुआँ सूखा था। ज्ञानेश्वर जी सिद्ध योगी थे। वे लघिमा सिद्धि से कुएँ के भीतर पृथ्वी में गये एवं जल पी नामदेव जी के लिये जल ले आये। पर नामदेव जी ने वह जल पीना स्वीकार नहीं किया और कहा— “मेरे विट्ठल को क्या मेरी चिन्ता नहीं है, जो इस प्रकार पानी पीऊँ ?” सहसा कुएँ में पानी भर गया और जल ऊपर तक आ पहुँचा। इस प्रकार सन्त ने सूखा कुआँ सबके लिये फिर जल से भरवा कर पानी पिया।

इनकी भक्ति के और भी अनेक चमत्कार हैं, जैसे नागनाथ के शिव-मन्दिर द्वार का इनकी ओर घूमना, गडकों के थनों में सबकी पूर्ति के लिए दूध का होना, आदि। इनकी भक्ति भेद-भाव रहित ‘जाति-पाँति पूछे नहिं कोई, हरि को भजै सो हरि का होई’ स्वरूप की थी। ये सगुणोपासक भक्त भगवान् के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानते हैं, किन्तु भक्ति के लिये सगुण रूप ही स्वीकार करते हैं। सगुण-मार्गी भगवान् के प्रकट रूप के साथ उनके अव्यक्त रूप का भी निर्देश करते रहे हैं। आइये पहले नामदेव की सगुणोपासना के पद्य गायें :—

दसरथ-राय-नंद राजा मेरा रामचन्द ।

प्रणवे नामा तत्व रस अमृत पीजै ॥

धनि धनि मेधा-रोमावली, धनि धनि कृष्ण ओढे कावली ।
 धनि धनि तू माता देवकी, जिन गृह रमैया कँवलापति ॥
 धनि धनि बनखँड वृन्दाबना, जँह खेलें श्री नारायना ।
 वेनु वजावैं, गोधन चारैं, नामे का स्वामि आनन्द करै ॥

और आगे यह उनकी निर्गुण बाणी सुनिये :—

माइ न होती, बाप न होते, कर्म न होता काया ।
 हम नहिं होते, तुम नहिं होते, कौन कहाँ ते आया ॥
 चन्द्र न होता, सूर न होता, पानी पवन मिलाया ।
 शास्त्र न होता, वेद न होता, करम कहाँ ते आया ॥

*

पाँडे तुम्हरी गायत्री लोथे का खेत खाती थी ।
 लैकरि ठेंगा टँगरी तोरी लंगत आती थी ॥

पाँडे तुम्हारा महादेव धौल बलद चड़ा आवत देखा था ।
 पाँडे तुम्हारा रामचन्द्र सो भी आवत देखा था ॥
 रावन सेंती सरबर होई, घर की जोय गँवाई थी ।
 हिन्दू अन्धी तुरुकौ काना, दुवौ ते जानी सयाना ॥

हिन्दू पूजै देहरा, मुसलमान मसीद ।
 नामा सोई सेविया, जँह देहरा न मसीद ॥

नामदेव की बाणी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पन्थ के लिये मार्ग निकालने वाले नाथ-पन्थ के योगी और

भक्त नामदेव थे। हिन्दी साहित्य में जो ज्ञान मार्ग के सन्त कवि हुए हैं उनका मूल नामदेव से ही आरम्भ होता है। नामदेव ने भूली भटकी जनता को उपासना का एक निर्दिष्ट मार्ग मुझाया। उनके भजनों में, उनके पद्यों में ईश्वर की निराकार ज्योति और उपासना के अमर मन्त्र हैं।

यह प्रसन्नता की बात है कि जब भारतीय स्वतन्त्रता और संस्कृति का सूर्य अस्त हो रहा था, जब मानव मानव के प्रति पिशाच बना हुआ था, जब हम लक्ष्यहीन होकर मँझवार में गोते लगा रहे थे तब सन्त नामदेव ने हमारी डूबती हुई नाव को बचाया।

यह महिमा भारतीय सन्तों की ही रही कि जिसके सामने विषमता और साम्प्रदायिकता की तलवार टूक-टूक होकर गिर पड़ी. मतमतान्तरों के अगारे धधक धधक कर द्रुभ गये, धर्मान्धों की आँधी उठ उठ कर शान्त हो गई, फूट के लाल पीले बादल गरज गरज कर बरस न सके। शत्रुता की अँधेरी, मियता की रोशनी में बदल गई।

आज हम न सतीत्व की रक्षा देखते हैं, न गौ ब्राह्मणों का सम्मान है, न मांस भक्षण रुक रहा है। वह भी एक समय था जब सन्तों के प्रभाव से मानव स्वेच्छापूर्वक शान्त था, वह स्त्री और बच्चों पर अत्याचार नहीं करता था, न इतनी साम्प्रदायिक घृणा थी, न हर चौराहे और बाजार में मांस की खुली दूकानें थीं, अर्थात् न इतने शराबी थे, न इतने कबाबी थे। चारों ओर धार्मिक एवं सांस्कृतिक शान्ति थी।

ये धर्म, संस्कृति और शान्ति के अग्रदूत भारतीय सन्त ही थे जिनके आदर्श आज भी भारत से सारी धरती पर शान्ति का सन्देश दे रहे हैं, महात्मा गाँधी जिनकी आत्मा के स्वरूप हुए। भारतीय सन्त परम्परा विश्व की सबसे अधिक प्रकाशमान पूर्णिमा है और सन्त नामदेव उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में ज्योतिवन्त शीतल चन्द्रमा हैं। इन्होंने अपने चरणों से धरती पर जो अमिट अक्षर लिख दिये हैं वे न मिटेंगे और न मानवता को मिटने देंगे। सत्य के ये दीपक जले, जलते रहें और दिवाकर की तरह तपता हुआ इनका तप प्रकाश देता ही रहेगा।

सन्त ज्ञानेश्वर

“दुष्टों की कुटिलता जाकर उनकी मत्कर्मों में प्रीति उत्पन्न हो और समस्त जीवों में परस्पर मित्र भाव वृद्धिगत हो। अखिल विश्व का पाप-रूप-अन्धकार नष्ट होकर स्वधर्म-सूर्य का उदय हो, उसका प्रकाश हो और प्राणीमात्र की सद्विच्छाएँ पूर्ण हों। इस भूतल पर अखिल मंगलों की वर्षा करने वाले भगवद् भक्तों के समूह की सदा प्राप्ति हो।”

यह है वह प्रसाद याचना और सन्देश जो सन्त ज्ञानेश्वर की वाणी से फूटकर जन जन में प्रवाहित है। सन्त ज्ञानेश्वर जन्मजात सन्त थे। इनका जन्म मन्वत् १३३२ भाद्र कृष्ण अष्टमी मध्यरात्रि को महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री विठ्ठल पन्त था और माता का नाम रुक्मिणीबाई। ये तीन भाई और एक बहिन थे— निवृत्ति नाथ, ज्ञानदेव और सोपानदेव, तथा बहिन का नाम मुक्तिबाई था। ये चारों ही सन्त थे।

एक बार जब निवृत्तिनाथ की आयु सोलह वर्ष की थी, ज्ञानेश्वर की चौदह वर्ष की, सोपानदेव बारह वर्ष के थे और मुक्तिबाई ग्यारह वर्ष की थी, तो यह बाल साधु-मंडली 'आलन्दी' में पैदल चलकर 'पैठण' आई। ये चारों सन्त ब्राह्मणों से शुद्धि-पत्र लेने आये थे। यद्यपि इन चारों परम शुद्ध साधुओं की शुद्धि-पत्र की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इनकी चरण रज से तो उस समय

भी सारा लोक मुद्ध था, पर शास्त्रों की मर्यादा जो रखनी थी, उनलिये शास्त्रज ब्राह्मणों से शुद्धि-पत्र लेना आवश्यक था।

पर जब मन्त्र ज्ञानेश्वर ने ब्राह्मण-चरण छू उनसे शुद्धि-पत्र मागा तो ब्राह्मण ने आगवबूना होकर कहा— “आया कहीं का जानदेव, मेरे दर्वाजे पर बंधे हुए इस भैसे का नाम भी जानदेव है।”

ज्ञानदेव ने शान्ति से उत्तर दिया— “भैसे में और हम में अन्तर क्या है ? नाम और रूप तो कल्पित है पर आत्म तत्त्व तो एक ही है। भेद की कल्पना ही अज्ञान है।”

इस पर ब्राह्मण देवता के क्रोधानल में धी पड़ गया। उन्होंने नात्र खाकर कहा— “अच्छा यह वान है !” और फिर चाबुक निकाल कर भैसे की पीठ पर तड़ातड़ कई चाबुक मार दिये।

किन्तु चाबुक पड़े भैसे की पीठ पर और उनकी चोटें लगी ज्ञानेश्वर की पीठ पर। चोट चिह्न ज्ञानेश्वर की कमर पर चमक उठे, रक्त जमे काले काले निशान साधु बालक की पीठ पर उपड आये। साधु की कमर से रक्त चूने लगा।

पर इतने पर भी ब्राह्मण को सन्तोष नहीं हुआ। उसने कहा कि यदि सभी में एक आत्मा है तो क्या यह भैंसा तेरी ही तरह बोल भी सकता है। यदि यह भैंसा तुम्हारे ही जैसा है तो इसमें ‘ओ३म्’ बोलवाओ। तुम जैसी जान की बातें करते हो वैसी ही इसमें करवाओ।

ज्ञानदेव ने भैंसे की पीठ पर हाथ रक्खा और भैंसा ‘ओ३म्’ का उच्चारण कर वेद मन्त्र बोलने लगा। यही नहीं ज्ञानदेव ने उनको कुछ मृतकों के सशरीर दर्शन भी कराये। श्राद्ध के दिन पितरों को

‘आगन्तव्यम्’ कहकर बुलाया और उन्हें भोजन कराया ।

सन्त ज्ञानेश्वर बाल्यकाल में ही पूर्ण साधू थे । इन्होंने अपनी इसी वाल अवस्था में ही “ज्ञानेश्वरी ग्रन्थ” की रचना की । गीता का स्वानुभूति भाष्य सुनाया । हमारे इस सन्त के और भी कितने ही चमत्कार देखकर उस काल के बड़े बड़े पण्डित चकित हो गये ।

ये चमत्कार देखकर ब्राह्मण के आश्चर्य का ठिकाना न रहा । वह लज्जा से जमीन में गड़ गया । उसने जानदेव के पैरों में गिरकर क्षमा माँगते हुए कहा— “मे अज्ञानी हूँ । मुझे क्षमा करो !”

पर काम क्रोध मद लोभ मोह से दूर सन्त ने ब्राह्मण को उठाने हुए कहा— “तुम भी जानदेव हो, क्षमा कौन किसे करेगा ?”

धन्य है सन्त ज्ञानेश्वर की अखण्ड एकात्म भावना । धमा, यही तो पृथ्वी का धर्म है । सब में एक ही आत्मा, आत्मैक्य का अनुभव ही तो साधुतत्व की प्राप्ति है । सब प्राणियों में एक ही आवाज गूँजती है । भिन्न भिन्न दीखते हैं पर वास्तव में भिन्न कोई भी नहीं । भिन्नता भूठ है और एकता मूल है ।

संक्षेप में यह है एक वह आदर्श जो सन्त ज्ञानेश्वर की आत्मा का स्वरूप है । सन्त ज्ञानेश्वर के पास योग की सभी सिद्धियाँ थी । वे जन्म से योगिराज थे । वे ज्ञान की साक्षात् मूर्ति थे । वे सकल आगम के वेत्ता थे । परमार्थ उनके जीवन का लक्ष्य था ।

सन्त का कर्म जीव की उन्नति है । प्राणियों को भजन में लगाना, उन्हें सत्कर्मों के लिये प्रेरणा देना, दया और धर्म का रास्ता दिखाना सन्त की प्रवृत्ति में शामिल हैं । जीवों को कष्ट से मुक्त करने के लिये ही तो सन्त का प्रादुर्भाव होता है । लौकिक और

सन्त ज्ञानेश्वर

२१

पारलौकिक भुक्ति के लिये ही सन्त के रूप में ईश्वरीय शक्ति अवतीर्ण होती है।

जिसने क्रोध पर विजय पा ली, जो क्षमा का साक्षान् स्वरूप है, जो सत्य और शान्ति का देवता है, वही सन्त है।

सन्त ज्ञानेश्वर भारत के महान सन्त हैं। उन्होंने स्थान स्थान पर घूम जो ज्ञान वाक्य दिये हैं वे अमर करने वाले अमर वाक्य हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो ज्ञानेश्वर ने जन्म जन्म में तप तप कर जो अनुभूतियाँ की हैं उन्हीं का सार वे प्राणियों में सद्भावना और मानव कल्याण के लिये छोड़ गये हैं। उनके दो प्रवचन इस प्रकार हैं :—

“जब तक इच्छा बनी हुई है, तब तक उद्योग भी है, पर संतोष हो गया तब उद्योग समाप्त हुआ।”

*

*

वैराग्य के सहारे यदि यह मन अभ्यास में लगाया जाये तो कुछ काल बाद यह स्थिर होगा। कारण, इस मन में एक बात बड़ी अच्छी है— वह यह कि जहाँ इसे चसका लगता है, वहाँ यह लग ही जाता है। इसलिये इसे भद्र अनुभव सुख ही देते रहना चाहिये।

परम सुख वही है जहाँ मन लीन है। इसलिये मन को अभ्यास में लगाना चाहिये। इस वाणी में तपस्या का सन्देश है। पर जब प्राणी को सन्तोष हो गया, तो उद्योग ही समाप्त हो जायेगा। जिसकी इच्छा नहीं है, वह मुक्त है और जीवन के लिये उद्योग आवश्यक है। इसलिये सन्त की चेतना में अथक उद्योग और परम शान्ति दोनों ही शामिल हैं।

मनुष्य का चरित्र जब भौतिक माया जाल में फँसकर दृष्टपटाने लगता है तब सन्तों की वाणी ही उन्हें मुक्त करती है। संसार पक मे धसे हुए प्राणियों को सन्त ही कमल बनाते हैं। सन्त का हृदय गुद्ध गंगाजल के समान है जो अपने प्रवाह में प्राणियों के मैल को वहाकर ले जाता है।

राजनीति की कठोरता मनुष्य के चरित्र को भौतिक जालमाश्री मे उलभा कर बहुत बार पतन की ओर ले जाती है। संसार के बड़े बड़े राजनीतिज्ञों ने मानव चरित्र को कानूनों से इतना ऊँचा नहीं उठाया जितना सन्तों ने अपनी निर्मल वाणी से उठाया है। कानून है कि कत्ल मत करो, चोरी मत करो। कानून है कि अनैतिकता की ओर कदम न बढ़ाओ, पर कौन रुकता है। न रिश्तत बन्द है न चोरियाँ रुकी हैं, न कत्ल बन्द है।

किन्तु सन्तों के सद् उपदेशों से मानव उन सब दुष्कर्मों से बहुत दूर रहता है जिन दुष्कर्मों से यह चमकनेवाला संसार मनुष्य को नहीं हटने देता। यदि मनुष्य को किसी परलोक सत्ता का भय न हो, यदि मनुष्य को पाप और पुण्य का भय न रहे, यदि मनुष्य यह भूल जाये कि चोरी और घूसखोरी से बड़ा भी मुन्न कोई है, तो वह कभी भी मनुष्य नहीं रह सकता। फिर उसे उसी जंगली की स्थिति मे आना होगा जिस जंगली की स्थिति से वह विकास करता करता आज मनुष्य बना।

भारतीय सन्त परम्परा की प्राणी जगत को बहुत बड़ी देन है। भारत के सन्तों ने जीवन और जगत को जितना ऊँचा उठाया है उतना किसी देश ने नहीं उठाया। आज के युग में भी यह सन्त

सन्देश ही गाँधी की वाणी में मुखर है जो मनुष्य को रक्त-स्नान में रोके हुए है। जो अहिंसा सत्य, प्रेम और एकता की वाणी आज मारे संसार को शान्ति प्रदान कर रही है वह भारतीय सन्तों की बहुत प्राचीन परम्परा है। भारत में जो राजनीतिज्ञ हुए हैं वे महान सन्त पहले हैं और राजनीतिज्ञ पीछे। राम, हरिश्चन्द्र, युधिष्ठिर, कृष्ण, चाणक्य, महात्मा गाँधी आदि सभी पहले सन्त हैं, बाद में राजनीतिज्ञ।

सन्त ज्ञानेश्वर चाहे राजनीतिज्ञ नहीं थे पर उन्होंने मानव चरित्र को बहुत ऊँचा उठाया है। समाज को उन्होंने वे मानव दिये हैं जिनसे परोपकार, सत्य, दया और क्षमा का तेज रहा है। यह साधु परम्परा ही है जो शान्ति-सन्देश देती हुई भारत से अस्खिल विश्व में भ्रमण कर रही है।

बड़ी बड़ी दाढ़ी और जटाओं वाले तपोवृद्ध साधु तो भारत में बहुत हुए हैं, किन्तु कुल इक्कीस वर्ष, तीन मास और पाँच दिन तक दुनिया में रहकर जीवित समाधि लेनेवाले महान सन्त ज्ञानेश्वर ही हैं। सन्त, ज्ञानेश्वर के ये चार ग्रन्थ बहुत ही प्रसिद्ध हैं— 'भावार्थ दीपिका' अर्थात् ज्ञानेश्वरी, 'अमृतानुभव', 'हरि पाठ के अभंग' तथा 'चांग देव-पासठी'। इनके अतिरिक्त ज्ञानेश्वर ने योगवासिष्ठ पर एक अभंगवृत्त की टीका भी लिखी थी। इस प्रकार जगत को सन्त ने ज्ञान के कितने ही फल और छाया देने वाले वृक्ष दिये हैं।

जगत को सन्त ज्ञानेश्वर की देन वह देन है जिसके मिलने पर और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। उन्होंने सब सुखों की कुजी भगवद्-भक्ति का उपदेश दिया है। उन्होंने कहा कि :—

“बहुत क्या माँगा जाये ! त्रैलोक्य सुख से परिपूर्ण हो, प्राणि-मात्र को ईश्वर का अखण्ड भजन करने की इच्छा हो। भाव-बल से भगवान् मिलते हैं, नहीं तो नहीं। जो भगवद् भक्त है वे कलंक रहित चन्द्रमा हैं, तापहीन सूर्य हैं, और वे सदा सत्रको प्रियजन है।”

यह सारा ब्रह्माण्ड हरिमय है। तुलसीदास ने भी कहा है “अखिल विश्व में रमा हुआ है राम हमारा”। और काग-काण में व्याप्त उस हरि की उपासना ही सन्त ज्ञानेश्वर के स्वरूप का सार है। उनकी ही भाषा में उनके हरि के दर्शन कीजिये :—

“हरि आया, हरि आया, सन्तसंग से ब्रह्मानन्द हो गया। हरि यहाँ है, हरि वहाँ है, हरि से कुछ भी खाली नहीं है। हरि देखता है, हरि ध्याता है, हरि बिना और कुछ नहीं है। हरि पढ़ता है, हरि नाचता है, हरि दर्शन में सच्चा आनन्द है। हरि आदि में है, हरि अन्त में है, हरि सब भूतों में व्यापक है। हरि को जानो, हरि को बखानो।”

आओ हम सब मिलकर उच्च स्वर से सन्त ज्ञानेश्वर के मन्त्रों का उच्चारण करें, उन सन्त ज्ञानेश्वर के मन्त्रों का जो भगवद्-भक्त है, चलने बोलने वाले कल्पतरु हैं, चेतनायुक्त चिन्तामणि के गाँव है, और अमृत के चलने बोलने वाले समुद्र हैं।

सन्त कबीर

जिस प्रकार सूर्य धरती के अंधकार को दूर करता है उसी प्रकार सन्त के उदय से अन्नर का अंधकार हटना है। सन्त दुःख महता है और सुख देता है। परोपकार साधु-जीवन का लक्ष्य है। सन्त-मिलन के समान कोई दूसरा सुख नहीं है। यदि किसी को साधु-दर्शन मिल गये तो उसे और क्या चाहिये ! आप धन को भूख में भटकते हैं, चाँदी सोने की चाह में जलते हैं, देह की पूजा में खोये हुए हैं, स्त्री, पुत्र आदि की चापलूसी में झुलमार रहे हैं, सच-मुच आप बड़े भोले हैं। कितनी मूल्यवान है जिन्दगी और कितने सस्ते दामों पर बेच रहे हैं। मत लुटाओ अपनी जिन्दगी, क्या आपने नहीं मुना :—

सुत दारा औ सम्यदा पायी के भी होय ।

सन्त-समागम हरि-मिलन तुलसी दुर्लभ दोय ॥

इसलिये मेरे साथ सन्त समागम को आओ। सन्त कबीर से सत्संग करो। इस समय इनकी आयु ५५७ वर्ष की है। इनका जन्म जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम सम्वत् १४५६ को हुआ था। जन्म दिन से ही इनकी परीक्षा आरम्भ हो गई थी और ये हर परीक्षा में उत्तीर्ण होते रहे।

एक दिन लहरतारा ताल के पास धरती माता की गोद में

एक नवजात शिशु खेल रहा था, जिसके तन पर धूप की चादर लनी हुई थी, और पछुवा हवा आ रही थी। उबर में नीरू नाम का एक जुलाहा निकला। उसने बालक को गोद में उठा लिया और घर लाकर पालने लगा। यही बालक आज आपके सामने सन्त कबीर के रूप में है।

कबीर के गुरु अपने समय के प्रसिद्ध राम-भक्त रामानन्द जी थे। सूफी फकीर शेख तकी से भी उन्होंने दीक्षा ली थी। पर कबीर की उपासना हिन्दू भाव से ही परिक्रमा करती रही। उनकी पूजा हिन्दू धर्म के रूढ़िवादी विचारों की नहीं थी। उन्होंने हिन्दू धर्म में आई हुई संकीर्णता की जड़ें उखाड़ीं और अपनी स्पष्ट वाणी से भूले हुए मानव को रास्ता दिखाया।

कबीर राम भक्त थे, पर उनके राम मनुष्य रूपी राम नहीं थे अपितु पूर्ण ब्रह्म थे। उनके राम हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई सबके राम थे। कबीर के राम प्राणी-मात्र के लिये कभी न बुझने वाले दीपक थे। उनके राम और खुदा में कोई भेद नहीं था, जो राम है वही रहीम है, जो ईश्वर है वही अल्लाह है। कबीर के राम प्राणी-मात्र के परम पूज्य आधार और एक अलौकिक ज्योतिस्वरूप है, जो जन जन में रहे हुए हैं, जो सबका कल्याण करते हैं, जो न कट सकते हैं, न बँट सकते हैं, अर्थात् एक रस हैं। वह साकार है तो साधु की देह में और निराकार रूप में वह कण कण में व्याप्त है ही। सारांश यह कि जो ब्रह्म ज्ञान मार्ग का निरूपण है वही सूफियों के रस में रंगा हुआ कबीर का राम है। कबीर के राम उपासना के साथ साथ प्रेम के विषय हैं। इस प्रकार कबीर ने भिन्न भिन्न मतों के मेल से एक नये एवं व्याप्त राम की अवतीर्ण किया जिसमें भारतीय ब्रह्म-

वाद, सूक्तियों का भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों का साधनात्मक रहस्यवाद, और वैष्णवों का अहिंसावाद शामिल है। आओ हम सब मिलकर उस कबीर पन्थी राम की आवाज़ को पहचानें जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड से आ रही है, अपने दशरथ-सुत राम के मर्म को समझें। कबीर की भाषा में :—

दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना ।
 राम नाम का मर्म न जाना ॥
 कस्तूरी कुंडल वसै, मृग ढूँँ बन माहि ।
 ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखै नाहि ॥
 माया है दुइ भाँति की, देखा ठोकि बजाय ।
 एक मिलावै राम सों, एक नरक लै जाय ॥

कबीर दृढ़ विचारों के दृढ़ समाज सुधारक थे। वे फूल से कौमल थे और ब्रज से कठोर। मार्ग की कोई भी बाधा उनके लिये बाधा नहीं थी। दुनिया क्या कहती थी, इसकी वह बिल्कुल परवाह नहीं करते थे। कबीर जिधर चले वही श्रेष्ठ मार्ग बन गया। कबीर का आत्मविश्वास अडिग था, आत्माभिमान बेजोड़। उन्होंने जो कुछ कहा स्पष्ट कहा, निडर होकर कहा। समाज के भयंकर भूतों से वे तनिक भी भयभीत नहीं हुए। उन्होंने गर्जकर कहा है :—

हस्ती चढ़िये ज्ञान की सुरति दुरीची डार ।
 श्वान रूप संसार है भूषण दे भखभार ॥

वास्तव में जो निडर है वही सच्चा समाज सुधारक है। जो निर्भय नहीं है वह दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। पर निर्भय वही

होगा, जिसकी चादर सफेद है, जिसके जीवन पर कोई कलंक नहीं, जिसका चरित्र उज्ज्वल है, इस स्याही की कालकांठरी में घुस कर भी जो वेदांग निकल आया, जो दूध का भूला हुआ रूप सा है। कबीर दूध और घूप दोनों से उज्ज्वल थे, उनकी चादर वेदांग थी। उन्होंने स्वयं कहा है:—

दास कबीर जतन से ओढ़ी
ज्यों की त्यों बर दीनी चदरिया ।

प्रेम जीवन का सबसे मूल्यवान् तत्त्व है। प्रेम की कहानी अकथ है। जहाँ प्रेम है वहीं सुख है। यदि मनुष्य के पास प्रेम नहीं है तो वह नरक का कीड़ा है। कबीर कोमल हृदय के प्रेम-सागर थे। उनकी बाणी से प्रेम की महान महिमा बार-बार बरसी है। उनकी कविता और कथन में प्रेम सबसे महान और सबसे मूल्यवान् है, प्रेम ईश्वर की तरह सर्वव्यापक है। वह जहाँ उच्छ्वा हो वहीं उपस्थित है, पर प्राणों के मूल्य पर, जैसे:—

प्रेम न खेतो नीपजै, प्रेम न हाट बिकाइ ।
राजा परजा जस रुचै, सिर दे सो लै जाइ ॥
आपा भेटे हरि मिलै, हरि भेटे जग जाइ ।
अकथ कहानी प्रेम की, कहे न कोउ पतियाइ ॥

पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुग्धा, पंडित भया न कोय ।
ढाई आखर प्रेम के, पढ़ै सो पण्डित होय ॥

कबीर की बाणी में प्रेम की जो कठिनता और अनुभूति व्यक्त हुई है वह सचमुच अकथ है। इन दोहों से प्रकट है कि

कबीर को प्रेम के मार्ग में बहुत से दुःखों का अनुभव हुआ होगा, तभी तो उनके हृदय से प्रेम की ऐसी चुभती हुई पंक्तियाँ निकलीं। वस्तुतः कबीर के प्रेम में ईश्वर का सत्य स्वरूप है, न कि लौकिक नश्वर ग्रंथों का रंगीन चित्रण। कबीर का प्रेम सत्य के प्रति है। उनका विश्वास सर्वव्यापक सत्ता के लिये अडिग प्रेम के रूप में प्रकट हुआ है।

कबीर बहुत ही भावुक थे। उनकी भावुकता "मैं साईं की पिलिया" जैसी पंक्तियों में कितने ही कवियों से आगे बढ़ गई है। उनकी यह भावुकता उनके चरित्र में अमर उदारता बनकर बरस पड़ी। प्रसिद्ध है कि एक बार कबीर की पत्नी लोई पर किसी ने पाप दृष्टि डालकर उसे पाने के लिये प्रयत्न किया। कबीर को जब यह पता चला तो वे अपनी निर्बल किन्तु सुन्दर पत्नी लोई को कन्धे पर बैठा उसके घर पहुँचे और कहा— "लो भाई, अपनी इच्छा पूरी करो।" इस पर वह बहुत लज्जित हुआ और उसने कबीर के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा माँगी। शायद इसी अनुभूति के आधार पर कबीर के कण्ठ से यह दोहा निकला हो :—

कबीर आप टगाइये, और न ठगिये कोइ ।

आप ठगे सुख ऊपजै, और ठगे दुख होइ ॥

मनुष्य के जीवन का धर्म कर्म है। भगवान् कृष्ण ने भी मनुष्य को कर्म का ही सन्देश दिया है। कबीर का भी कर्म में ही विश्वास था। वे साधु पीछे थे, पहले कर्मठ। उन्होंने श्रम करके खाया, फकीर बन कर भीख कभी नहीं माँगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, जीवन को सँझाया भी नहीं। जुलाहे का काम भी करते थे और सन्देश

भी देते रहते थे। उनके हाथ चलते रहते थे और कण्ठ गाता रहता था, उनकी उँगलियाँ कपड़ा बुनती थीं और स्वर अमृत देता रहता था। खाली बैठे जबान चलाने वालों के लिये उनकी ये पंक्ति अमर हैं :—

कथनी मीठी खाँड-सी, करनी विष-मी लोड़ ।

कथनी तजि करनी करै, विष ते अमृत होइ ॥

इसलिये हे मनुष्य ! तू कर्म से न भाग, जीना चाहता है तो कर्म कर, सन्त कबीर की वाणी अपनी जिह्वा पर रख ले, इसमें तेरे भीतर और बाहर प्रकाश रहेगा ।

कबीर ने जो सत्य संसार को दिये हैं वे जीवन के लिये अनमोल धन हैं। यदि हम उन सत्यों को कण्ठस्थ कर लें और अपनी जीवन-सिद्धि के लिये माध्यम बना लें तो क्या ही बात है, जन्म और मरण दोनों ही सफल हो जायें। उनके एक एक दोहे पर संसार न्यौछावर किया जा सकता है। उनकी अमृत वाणी अमर सत्यों से भरी पड़ी है। उनके दोहों में वे उपदेश हैं जो मृत्यु से मरते नहीं और जीवन से हारते नहीं। आइये, हम और आप कुछ सत्यों का पाठ करें :—

निन्दक दूरि न कीजिये, दीजै आदर मान ।

निरमल तन मन सब करै, बकि-बकि आनहि आन ।

यह ऐसा संसार है, जैसा सेमल फूल ।

दिन दस के व्यवहार कौ, भूठे रंग न भूल ॥

तन सराय मन पाहुँ, मनसा उतरी आय ।

कोउ काहू का है नहीं, देखा ठोकि बजाय ॥



गो धनबाज धन बाजि धन, और रतन धन खान ।
 इलाहाबाद आय सन्तोष धन, सब धन धूरि समान ॥
 जाने ता बूभे नहीं, बूभि किया नहीं गौन ।
 अन्धे को अन्धा मिला, राह बतावै कौन ॥

इस प्रकार कबीर का एक एक दोहा शत शत सूर्यों की तरह प्रकाश देता है और उनके कोटि कोटि दोहे अमर हैं।

कबीर सन्त थे, सच्चे सन्त । सन्त की महिमा महान है । सन्त नुलसीदास ने लिखा है :—

मन्त हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पै कहा न जाना ।
 निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवै सुसन्त पुनीता ॥
 वास्तव में—

सच्चा सन्त वही है जिसका मानस पर दुःखों से पिघला ।
 औरों की आँखों का आँसू जिसकी आँखों से बह निकला ॥

कबीरदास ऐसे ही सच्चे सन्त थे । उनका चरित्र उज्ज्वल सन्त का चरित्र है । सन्त क्या है, इसकी महिमा कबीर ने मुक्त कण्ठ से गाई है, मानो वे अपने चरित्र में तन्मय होकर कह उठे :—

सन्त न छाँड़ै सन्तई, कोटिक मिलै असन्त ।
 चन्दन भुवँगा बैठिया, सीतलता न तजन्त ॥
 खोद खाद धरती सहै, काट फूल बन राय ।
 कुटिल वचन साधू सहै, औरस सहा न जाय ॥

बाबा तुलसीदास ने भी कहा :—

बूंद अघात सहै गिरि कैसे ।
खल के वचन सन्त सह जैसे ॥

कवीर एक कमाल के मन्त थे । उनको हम रहस्यवादी कवि की तरह अद्भुत सन्त देखते हैं । दुनिया में रहना और मन्त रहना, यह बड़ा कठिन कार्य है । किन्तु कवीर के धिये तो कुछ भी कठिन नहीं था, यहाँ तक कि वे ईश्वर के आगे भी हाथ फैलाना नहीं जानते थे । उन्हें अपने तप पर भरोसा था । उन्होंने मनुष्य को ईश्वर से पाप मुक्ति के लिये भीख मांगने का उपदेश नहीं दिया, अपितु इतना बल संचित करने का मन्देश दिया है कि मनुष्य अपने पाप आप काट सके ।

इसका अर्थ यह नहीं कि कवीर को ईश्वर पर विश्वास नहीं था । कवीर सच्चे ईश्वरोपासक थे । वह ऐसे उपासक नहीं थे कि इधर पाप करते रहो उधर ईश्वर के आगे गो रोक अमा मांगते रहो । ईश्वर पर पूर्ण विश्वास के उनके बहून से दोहे हैं, एक दो देखिये :—

अण्डा पालै काछुई, बिन तन राखै पोख ।
यों करता सबकी करै, पालै तीनउ लोक ॥

कवीर क्या मैं चित हूँ, मन चिन्तै क्या होय ।
मेरी चिन्ता हरि करै, चिन्ता मोहि न कोय ॥

कुमोदिनी जलहर बसै, चन्दा बसै अकास ।
जो जाही की भावना, सो ताही के पास ॥

कबीर सन्त थे, समाज सुधारक थे, उपदेशक थे, तो क्या वे कवि नहीं थे ? कुछ विचारकों का कहना है कि कबीर केवल उपदेशक थे, कवि नहीं। परन्तु यह मिथ्या विचार है। कबीर संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में हैं, वे पण्डितों के कवि भी हैं और जन-साधारण के कवि भी। धन्य हैं कवि कबीरदास, भिखारी भी जिनके पदों को गा गाकर सोयी हुई भावनायें जगा देते हैं। कविता वह है जो हृदय को जगा कर नयी चेतना देती चली जाये, कविता वह है जो छिपे हुए सत्त्यों का उद्घाटन करे। कवि कबीर ने कितने ही रहस्य अपनी कविताओं में खोलकर रखे हैं। उन्होंने साधारण भाषा और सरल अभिव्यक्ति में बड़े बड़े गम्भीर भाव भरे हैं, देखिये :—

साईं के संग सासुर आई ।

मम नसूती, स्वाद न माना, गा जीवन सपने की नाई ॥
जना चारि मिलि लगन सुधायौ, जना पाँच मिलि माड़ो छायो ।
भयो विवाह चली विनु डूलह, बाट जात समधी समभाई ॥

कबीर की वाणी का संग्रह 'बीजक' नाम से प्रसिद्ध है, जिसके तीन भाग हैं— रमैती, सवद और साखी। इनमें वेदान्त, हिन्दू मुसलमानों को खुली फटकार, संसार की असारता, हृदय की प्रेम भावनाओं, माया की प्रबलताओं, मूर्ति पूजा का विरोध, हज नमाज व्रत की व्यर्थता आदि के अनेक प्रसंग हैं। इन पदों की भाषा गीतों में काव्य की भाषा है, वैसे जन काव्य में सधुक्कड़ी भाषा है। कबीर की यह भाषा खिचड़ी भाषा के नाम से प्रसिद्ध है।

जिन आदर्शों को हमने गांधी जी में देखा, वे ही आदर्श हमें कबीर में मिलते हैं। कबीर मांस खाने के कट्टर विरोधी थे, अहिंसा

के अनुयायी थे। तभी उन्होंने कहा :—

बकरी पाती खात है, ताकी काड़ी खाल ।
जो बकरी को खात है, निनका कौन हवाल ॥

महात्मा गांधी ने मांस भक्षण का विरोध किया, अहिंसा के द्वा पर दृढ़ रहे। सभ्य मानव के लिये मांस खाना अव्याज ही नहीं, असभ्यता है। विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार बर्नार्ड शा भी मांस खाने के विरोधी थे। वे मांस नहीं खाते थे। एक बार एक दावन में जब उनके सामने मांस की प्लेट आई और उन्होंने उसे नहीं छुया तो एक दोस्त ने कहा— “शा साहब, खाते क्यों नहीं ?”

शा ने उत्तर दिया— “मेरा पेट कोई कश्मिनान नहीं है जिसमें मुझे दफनाये जायें। अतः सभ्य कहलाने का दावा करते हो तो मांस खाना छोड़ो।”

हिन्दू मुस्लिम एकता के भी कबीर कट्टर प्रचारक थे। हिन्दुओं की कुरीतियों से दुखी होकर उन्होंने हिन्दुओं को बहुत फटकारा है, जैसे:—

पत्थर पूजे हरि मिलें तो मैं पूजुं पहार ।
पूज पुजारी ले चला दे मूरति मुख क्षार ॥
ऐसे ही मुसलमानों को—

दिन को रोजा रहत है, रात हनत है गाय ।

यह तो खून वह बन्दगी कैसे खुशी खुदाय ॥

इस तरह दोनों को फटकारते हुए उन्होंने प्रेम और एकता का वह अमर सन्देश दिया है जो यदि अपनायें तो मूल शान्ति का

अमृत पीने को मिल सकता है ।

गांधी जी ने सत्य को ही ईश्वर कहा है । इसी प्रकार कबीर भी सत्य की सुगन्ध को ही ईश्वर कहते हैं । उन्होंने ईश्वर को फूल की सुगन्ध से भी पतला कहा है । रूपक द्वारा कबीर के सत्य की सुगन्ध मौसम बेमौसम सदा फैलती रही और फैलती रहेगी ।

इस प्रकार सन्त कबीर ने समाज के अन्तर में चिपटे हुए उन कीड़ों को खोद खोदकर निकाला है जो मानव सृष्टि में विष फैलाते जा रहे थे, अपनी करनी और कथनी से संसार को दिव्य दीपक दिये । सन्त के शब्द जीवन के लिये अनमोल मोती हैं ।

सन्त गुरु नानक

परिस्थितियों के अनुसार महात्मा, सन्त अथवा अवतार का आविर्भाव होता है। जिस काल में जैसी परिस्थिति होती है उस काल में वैसी ही ईश्वरीय शक्ति प्रकट होती है। भक्ति, तपस्या, त्याग आदि भगवान् की शक्ति हैं। जो इनको प्राप्त होकर मानव कल्याण में लग जाता है वही सन्त है, वही माधु है, और वही ज्ञानी है। संसार के उद्धार के लिये जिसने अपने जीवन को आरती का जलता दीपक बना लिया वही सन्त है।

गुरु नानक का प्रादुर्भाव उन विपन्न परिस्थितियों में हुआ जिनमें मानव मानवता को भूल रक्तिम रास्ते पर चलने लगा था। इन्सान धर्म के नाम पर इन्सान का खून पीता था। पूजा स्थानों पर मजहब की तलवार का तंगा नाच हो रहा था। नृत्य, प्रेम और अहिंसा के स्थान पर भूट, घृणा और हिंसा की मन्तमानी थी। मनुष्य इतना गर्वान्ध था कि धर्म कर्म सब भूल ईश्वर के बन्दों पर जुन्म कर रहा था। अधिक क्या मनुष्य ने माला फेंक दी थी और तंगा तलवार लिये तंगा नाच रहा था।

गुरु नानक का जन्म सम्बत् १५२६ कार्तिकी पूर्णिमा के दिन तिलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। इनके पिता का नाम कालूचन्द खत्री था और माता का नाम तुत्तादेवी। नानक देव बचपन से ही बड़ भाल और सत स्वभाव के थे उनाम यप की

अवस्था में इनका विवाह गुरदासपुर के मूलचन्द खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ। सुलक्षणी देवी से इन्हें दो पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। इनके एक पुत्र का नाम श्रीचन्द है, दूसरे का लक्ष्मीचन्द। ये ही श्रीचन्द आगे चलकर उदासी सम्प्रदाय के प्रवर्तक हुए।

जिसका मन हरि में लग जाता है फिर उसे दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता। पिता ने नानक देव को दुनियादारी एवं व्यापार आदि में बहुत प्रोत्साहन चाहा पर वे न फँसे। एक बार पिता ने इन्हें व्यवसाय के लिये कुछ धन दिया जिसे इन्होंने साधु सन्तों में बाँट दिया।

गुरु नानक गुरु से ही भक्त थे। जो भक्त होता है वह त्यागी दयालु और प्रेमी होता है, उसका मन दुनिया में न लगकर साधु सन्तों में लगता है। वह हिंसा और अधर्म के विरोध में अपनी शान्त आवाज बुलन्द करता है। जबकि बहुत से स्त्री पुरुष बलात् मुसलमान बनाये जा रहे थे, जबकि मुसलमानों के प्रभाव से शास्त्रों का पठन-पाठन उठने लगा था, जब धर्म और उपासना के मूढ़ तत्त्वों को समझने की शक्ति कुन्द होती जा रही थी, जब बहुत से देवी देवताओं की उपासना के स्थान पर एकेश्वरवाद का प्रचार बढ़ रहा था, तब सन्त कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण सन्त मत ही एक ऐसा मार्ग था जिस पर चल और चला कर गुरु नानक ने भारतीय सभ्यता और धर्म की गिरती हुई दीवारों को रोका।

गुरु नानक ने घर बाहर छोड़कर दूर दूर तक धर्म शान्ति और उपासना के सन्देश दिये, हिन्दू और मुसलमानों को भक्ति का ज्ञान प्राप्त दिखाया निगुण उपासना का प्रचार करते हुए वे स्थान

स्थान पर गये। यद्यपि गुरुजी कुछ विशेष पद लिखे नहीं थे पर उनकी वाणी में कुछ ऐसी शक्ति थी कि ब्रह्म वाक्य निकलते थे।

गुरु नानक सिल्ल-सम्प्रदाय के आदि गुरु हुए हैं। उनकी भक्ति और तेज का उस समय सर्वत्र प्रकाश फैला। केवल सिख ही नहीं देश और विदेश के कोटि कोटि जन उनकी वाणी-कमल के भौरे थे, और आज भी है। भक्ति भाव से पूर्ण होकर जब वे भजन गाते थे तो भक्त-जन भूम उठते थे। यह खुशी को बान है कि गुरु नानक के भजनों में देश की कई भाषाओं के शब्द हैं। उनकी हिन्दी में पंजाबी, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी आदि सभी भाषाएँ हैं, भाषा इतनी सरल है कि भाव सीधे हृदय तक पहुँचते हैं और प्राणी आत्म-विभोर हो जाते हैं। जब ये गाते थे तो भक्ति और ज्ञान के रस का समुद्र उमड़ पड़ता था। संसार की अनित्यता, भगवद्भक्ति और सन्त स्वभाव के सम्बन्ध में इनके कितने ही भजन हैं। ज़रा दो चार छन्दों की गंगा में गोते लगाइये :—

इस दम दा मैंनू कीवै भरोसा,
आया आया, न आया न आया ।
यह संसार रैन दा सुपना,
कहीं देखा, कहीं नाहिं दिखाया ॥

सोच विचार करे मत मन में,
जिसने ढूँढा उसने पाया ।
नानक भक्तन दे पद परसे,
निश दिन राम चरित मन लाया ।

जो नर दुख में दुख नहिं माने ।

सुख सनेह अरु भय नहिं जाके, कंचन माटी जानें ॥
 नहिं निन्दा, नहिं अस्तु तिजाके, लोभ मोह अभिमाना ।
 हरष सोक तैं रहैं नियारो, नाहिं मान अपमाना ॥
 आशा मनसा सकल त्यागिकैं, जग ते रहै निरासा ।
 काम क्रोध जेहि परसै नाहिं, न तेहि घर ब्रह्म-निवासा ॥
 गुरु किरपा जेहि नर पे कीन्हीं, तिन्ह यह जुगति पिछानी ।
 नानक लीन भयो गोविन्द सां, ज्यों पानी संग पानी ॥

इन भजनों में जो रस है वह आनन्द के साथ साथ ज्ञान भी देता है। दुःख और सुख से दूर रहो, निर्भय रहो, सोने को मिट्टी समझो, निन्दा और स्तुति से परे रहो, लोभ मोह और अभिमान से मन फँसो, काम क्रोध आशा और मनसा को त्याग कर हरिभजन करो। इसी से शान्ति मिलेगी, परम तत्त्व में तत्त्व मिल जायेंगे।

इस प्रकार ये हैं गुरु नानक के भजनोपदेश। उपदेश तो दुनिया से सभी दे सकते हैं पर सन्त वे ही हैं जो अपने दिये हुए उपदेशों पर चले भी। सन्त गुरु की यह महिमा है कि उन्होंने जो कुछ कहा उस पर वे पहले चल लिये।

जो बड़े हुए हैं उन पर काट भी बड़े बड़े आते हैं। जो आगे बढ़ना है पत्थर उसके पथ में अड़ा ही करते हैं। गुरु नानक देव ने जब अत्याचारों के विरोध में आवाज़ उठाई तो तत्कालीन शासक भडक उठे। गुरुजी जब एमनावाद गये, जहाँ कि अत्याचारों का ब्रह्म जोर था, तो वहाँ वावर ने उन्हें कैद कर लिया। पर कैद

शरीर को किया जा सकता है, किसी की वाणी को नहीं। गुरुदेव सत्य कहने से न रुके।

जिसके पास सत्य का बल है उसको अपने पथ से कौन रोक सकता है। तकलीफ मनुष्य को जितनी दी जाती है उतना ही वह और निखरता है। सोना आग में तप तप कर ही कुन्दन बनता है। सरकार ने गुरुदेव को जितना तपाया उनसे ही दमकने लगे गये।

शान्ति को जितना दबाया जाता है उतनी ही कांति होती है। सन्त को तलवार बश में नहीं कर सकती। सत्य पानी की धार की तरह होता है जो लोहे से नहीं कटता।

लोहे के पिंजरे में सन्त की आवाज और भी नेज हो गई। वह बन्दीगृह की दीवारों को फोड़ फोड़कर निकलने लगी। गुरु नानक-देव के बन्दी होने से जन जन में हलचल मच गई, भक्तों के स्वर ऊँचे हुए, जेल की दीवारों कांपने लगीं, बाबर का मिहामन हिल उठा। सन्त की शक्ति के सामने वह घबरा गया, और उसने नन-मस्तक होकर गुरु नानक को छोड़ दिया।

कारागृह की कठिन यत्नवायें सहने के बाद जब वे छूटे तो भारतीय एकता का सन्देश लिये भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक गये। नेपाल, भूटान, सिक्किम, तिब्बत, चीन, ईरान, अफगानिस्तान और अरब आदि को चरण रज से पवित्र किया। गुरु नानक विभिन्न धर्मावलम्बियों से पृथक् पृथक् मिले और उनमें समन्वय के भाव भरे। अधिकारियों, प्रजाजनों तथा धार्मिक कर्णधारों को बड़ी विनम्रता से उनकी त्रुटियाँ बताईं एवं उन्हें मद्दोषदेश दिये। स्थान स्थान पर

आपसी मेल जोल बढ़ाने के लिये संस्थाओं स्थापित कीं, जहाँ सब लोग साथ बैठें, साथ जीमें और साथ भजन कीर्तन आदि करें।

गुरुजी का सिद्धांत था "एक पिता, एकमा ह्रम बालक", इस लिये भाईचारे से रहो। बुरे से नहीं, बुराई से घृणा करो। सारे सम्प्रदाय और सब व्यक्ति एक हैं। सीठी बाणी से दूसरे के हृदय जीतो।

सन्त नानक जी सच्चे साधु थे, उनका हृदय गंगाजल सा शुद्ध था। मन की शुद्धि के बिना मानव मैला ही है। गुरुजी ने उपदेश दिया कि "जगदीश्वर ही सब कुछ है। मानसिक पवित्रता ही सब कुछ है। मानसिक पवित्रता ही प्रथम धर्म है और श्रेष्ठ प्रार्थनीय तथा साधनीय वस्तु है।"

गुरु नानक देव के सन्देश जीवन और जगत् के लिये अंधेरे में दीपक हैं। यहाँ हम उनकी कुछ वाणी अंकित करते हैं—

"उसकी यह महिमा है कि उसके गमान न कोई है, न धा और न होगा।"

"तू जितना बड़ा है उतना ही बड़ा तेरा दान हो।"

"वे मनुष्य अथम हैं जो तुझ स्वामी को भूल बैठे हैं।"

"मनुष्य यदि चागें युग जीवें या इनमें भी दसगुनी आयु उसकी हो जायें, और नवों खण्डों में वह जिय्यान हो, सब लोग उसकी जय जय करने लगें, पर यदि परमात्मा ने उस पर कृपा दृष्टि नहीं की तो उसकी कुछ भी कीमत नहीं। सब दीपी भी उस पर दोषारोपण करंगे। वह निर्गुणी को भी गुणी कर देता है और गुणी को और भी गुणी बनाने में समर्थ है।"

“केवल कह देने से मनुष्य न पुण्यात्मा बन जाते हैं न पापी, किन्तु वे तुम्हारे कर्म हैं, जिन्हें तुम अपने साथ लिखते जाते हो। तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाते हैं। आपही तुम जैसा बोलें हो, वैसा खाते हो।”

“यदि किसी के नागरिकों का चरित्र उज्ज्वल है तो वह देश छोटा और गरीब होने पर भी महान है। चरित्र खो जाने पर सब कुछ खो जाता है। धन्य हैं वे महात्मा और सन्त जो चरित्र का निर्माण करते हैं। किसी देश का चरित्र बल ही वह बल है जिसके सामने समस्त पैशाचिक शक्तियाँ हार मान लेती हैं।”

भारतीय सन्तों के उदय से उन पैशाचिक शक्तियों का अन्त हुआ जो मनुष्य के अन्तर में छिपी हुई मृष्टि को चूर चूर और काट काटकर खाती रहती हैं, जो दुनिया में अन्धकार फैलानी है।

सन्त गुरु नानक उन भारतीय सन्तों में से हैं जिनकी स्वर लहरी से मनुष्य के मन को धोने वाली शीतल पावनी धारा बही, जिन्होंने तप तप कर धरती की आग वसन्त की सुगन्धित फूलवारी में बदली, जिन्होंने शान्ति की वह बर्फीली हवा चलाई कि आज भी कण कण शीतल और सुगन्धित है।

युग आये और चले गये, बड़े बड़े वैज्ञानिक चमत्कार हुए, हो रहे हैं, और होते रहेंगे। पर क्या उनसे सचमुच वह धर्म मिलेगा जिनसे चरित्र का उत्थान होता है, जिनसे मानव में आत्मबल बढ़ता है, जिनसे जीवन में शान्ति आती है ?

सन्त गुरु नानक देव ने देश, धर्म और जाति का जो आध्यात्मिक

उत्थान किया है वह सदा हरा भरा रहेगा। हमारे देश के पास चाहे वैज्ञानिक अस्त्र शस्त्र न हों पर गुरु नानक देव जैसे वे महान सन्त हैं जो संसार को सुख और शान्ति देते हैं। धन्य है भारत जिसमें गुरु नानक देव की अमर वाणी है, जिससे सत्य, प्रेम और शान्ति के भरने निकले।

सन्त तुलसीदास

भारतीय संस्कृति के प्राण और विश्व साहित्य के कल्पतरु सन्त तुलसीदास इस लोक के सुख और परलोक के दीपक हैं। उनके उदय ने धर्म को जीवन दिया, समाज को चेतना प्रदान की, जीवन को सत्य दिये और साहित्य में चार चाँद जड़े। वे सन्तों के कण्ठ के गीत अब से लगभग चार सौ वर्ष पूर्व श्रावण शुक्ला सप्तमी सम्बत् १५८६ में धरती पर आये और श्रावण शुक्ला सप्तमी का ही सम्बत् १६८० में स्वयम् को अपने शब्दों में छोड़ परलोक चले गये। देहधारी तुलसी आज हमारे सामने नहीं हैं पर अपने अमर काव्य और उज्ज्वल तपस्या में वे सदा सब के सामने हैं। वे अंधेरे से निकले और उजाले में ले आये। वे ऐसे सन्त हैं जिनका प्रकाश सर्वतोमुखी और सर्वकालीन है।

तुलसी की माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दूबे है। इनकी जन्मभूमि राजपुर है। इनका विवाह एक परम सुन्दरी कन्या रत्ना से हुआ था। यही रत्ना ही तुलसी की चेतना है। रत्ना के उपदेश से ही तुलसीदास सन्त तुलसीदास बने।

कहानी बहुत प्रसिद्ध है कि तुलसी अपनी पत्नी रत्ना से अत्यधिक प्रेम करते थे। उनके लिये पत्नी से पल भर के लिये भी

पृथक् रहना कठिन था। तुलसी एक दिन के लिये भी रत्ना को माता पिता के घर नहीं जाने देते थे। एक दिन जब तुलसी कुछ समय के लिये किसी काम गये तो रत्ना यमुना पार अपने पीहर चली गई। तुलसी जब लौटकर आये और रत्ना को घर में नहीं पाया तो बहुत व्याकुल हुए। वे उसी समय रत्ना के पास चले।

समय प्राची रात का था, अंधेरी काल-सर्पिणी की तरह खाने को आ रही थी, पानी बहुत जोर से बरस रहा था, आकाश में बिजली कटक कड़क कर प्राणों को काँपा रही थी, यमुना की तूफानी बाढ किनारों को तोड़ती हुई गर्ज रही थी। किन्तु तुलसी के हृदय का प्रेम इन भयंकर काल रात्रि में तनिक भी कम्पित नहीं हुआ। वे अपनी प्रिया से भिगने को इतने व्यग्र थे कि तूफानी नदी में कूद पड़े। उस नदी में कोई लाश बही जा रही थी। इसी लाश को नाव समझ तुलसी उस पर सवार हो गये और उस पार जा पहुँचे, तथा पहुँच गये उस द्वार पर जिसमें उनके प्राणों की शान्ति सो रही थी।

दर्शना बन्द था, ऊपर चौखट पर एक काला सर्प लटक रहा था। तुलसी सर्प की प्रेम-डोर समझ उसे पकड़कर ऊपर छत पर पहुँच गये। धन पर उनकी प्राणप्रिया मीठी नींद सो रही थी। तुलसी ने जैसे ही उन दिव्य मून्डरी के कणोलों पर उंगली रखी जैसे ही वह चौककर उठी और अपने पास अपने प्राणधन को देख कर बोली—
“आप और इसी रात में, यहाँ तक कैसे आये ?”

तुलसी ने चकोर की तरह चाँद की तरफ लपकते हुए उत्तर दिया—
“तुमन को प्रेम-डोर द्वार पर लटका दी थी उसी को पकड़ कर

यहाँ चला आया।”

रत्ना ने द्वार पर जाकर देखा तो सर्प देखकर कांप उठी और पति की ओर प्रेम से देखती हुई बोली :—

लाज न लागत आपको, दीरै आयहु साथ ।
 धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहीं मैं नाथ ॥
 अस्थि-चर्म-मय देह मम, तामे जैसी प्रीत ।
 तैसी जौ थी राम महँ, होति न तौ भवभीत ॥

रत्ना की यह बात तुलसी को लग गई। उनके हृदय में यह बात ऐसी चुभी कि तुलसी संसार को छोड़ कर सन्त हो गये। रत्ना को खोजते खोजते तुलसी राम को खोजने लगे। “हे राम! तुम कहाँ हो? राम! मेरे राम! दर्शन दो राम!”

रत्ना से गुरु-मन्त्र लेकर वे उसी समय विरक्त हो गये। उनके मन में राम और ओठों पर राम चरित्र मुखर हो उठा। प्रेमी तुलसी ने सन्त तुलसी का रूप ले लिया।

यद्यपि तुलसा को सबसे बड़ा गुरु मन्त्र उनकी पत्नी रत्ना ने दिया, पर तुलसी विद्वान् पहले ही हो चुके थे। वे संस्कृत, हिन्दी, अवधी, ब्रज आदि कितनी ही भाषाओं के पंडित थे। भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म और भारतीय इतिहास के वे मर्मज्ञ थे। इतिहास, दर्शन, पुराण, वेद आदि सबका उन्होंने मनन किया था। सत्संग और देशाटन से वे बहुत कुछ सीख चुके थे। इनके गुरु बाबा नरहरिदास थे। गुरु के आश्रम में ही गोस्वामीजी ने महात्मा शेषसनातन जी से वेद वेदाङ्ग दर्शन इतिहास पुराण आदि पढ़े।

इस प्रकार गुरुओं से शिक्षा और पत्नी से चेतना लेकर तोस्वामी जी ने गंगा तट पर आसन जमा लिया। यहीं गंगा तट पर तुलसीदास ने प्रसिद्ध ग्रन्थ रामायण की रचना की। रामायण सर्वादा पुरुषोत्तम नाम के चरित्र पर महाकाव्य है, जिसमें सन्तों के सर्वोद्भव नन्व भरे पड़े हैं।

सन्त कौन है, सन्त का चरित्र कैसा होता है, सन्त और असन्त में क्या अन्तर है? इन सब पर तुलसीदास ने 'रामचरित-मानस' में बहुत से अनुभवों और मन्थन से लिखा है। सन्त के मन्वन्थ में उन्होंने कहा है:—

बन्दऊ मन्त समान चित, हित अनहित नहि कोउ ।
अजलि गन मुभ मुमन जिमि, सम सुगन्ध कर दोउ ॥

*

सन्त सरल चित जगत-हित जानि सुभाउ सनेह ।

संसार में चाहे सब कुछ मिल जाये पर यदि साधु सङ्ग नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिला, सत्सङ्ग के बिना जीवन वृथा है। और सत्सङ्ग वही है जहाँ साधु के दर्शन हैं। तुलसीदास ने कहा है:—

विधि-हरि-हर कवि कोविद वाणी ।
कहत साधु महिमा सकुचानी ॥

*

लहहि चार फल अछत तनु साधु, समाज प्रयाग ।

*

साधु चरित सुभ सरिस कपासू ।
 निरस विसद गुनमय फल जासू ॥
 जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा ।
 बन्दनीय जेहि जग जस पावा ॥

जब हम उस साधु समाज की खोज में निकले जो अर्थ धर्म काम मोक्ष का दाता है तो वह हमें सन्त तुलसीदास में प्राप्त हुआ । सन्त तुलसीदास का 'रामचरित मानस' सच्चा साधु संग है । रामचरित मानस की चौपाई चौपाई में सन्त का उपदेश है । सन्त और असन्त का चरित्र चित्रण करते समय तुलसीदास ने बड़ा ही रोचक चित्र खींचा है । बन्दना करते हुए वे कहते हैं:—

बन्दऊँ सन्त असज्जन चरना ।
 दुखप्रद उभय, बीच कछु बरना ॥
 बिछुरत एक प्राण हरि लेई ।
 मिलत एक दारुण दुख देई ॥

*

सुधा-मुरा सम साधु असाधु ।

*

हानि कुसंग सुसंगति ला हू ।

जो सद् उपदेश दे वह सन्त है, जो जीवन की भाँसाई के लिये ज्योति का पथ दिखाता है वह साधु है । दुनिया में गुण और दोष दोनों ही हैं, सन्त गुणों को ग्रहण कर बाँटते हैं । हम बुद्धिमान हैं ।

जिमसे हानि हो वह काम हम क्यों करें? हम तो लाभ चाहते हैं, वह लाभ जो अमर है। सन्त तुलसीदास की वाणी में वह अमृत है जो अमर बनाता है। सन्त के उपदेश अंधेरे से उजाले में व्याते हैं। न कोई ऐसा उपदेश है, न होगा जो तुलसीदास ने नहीं दिया। मानव को ऊँचा उठाने के लिये सन्त की रचना कोटि कोटि सन्देश है। 'रामचरित मानस' की हर चौपाई एक मौलिक सन्देश देती है।

तुलसीदास के सन्देश भक्ति, ज्ञान और अनुभूति के संगम हैं। हमारे सन्त परम विद्वान, अद्वितीय भक्त और चोटी के कवि हैं। वे भाषा के निर्माता, अनुभूतियों की कामधेनु और भावनाओं के सागर हैं। उनका अक्षर अक्षर प्राणवान है। उनके रचे रामचरित मानस, त्रिनय पत्रिका, रामलला नहच्छू, दोहावली, बरवै रामायण, गीतावली, वैराग्य सन्दीपिनी आदि बरह ग्रन्थ हैं। इन ग्रन्थों में सन्त के दिये हुए वे शब्द हैं जो चेतना वन कर गली गली में प्रभाती गा रहे हैं। जन जागरण और संस्कृति का संसार में एक ही कवि है, और वह है तुलसीदास।

मानव चरित्र को जितना तुलसीदास ने ऊँचा उठाया है उतना और किसी समकालीन सन्त ने नहीं उठाया। उन्होंने माता, पिता, गुरु, भाई, पत्नी, शत्रु, मित्र आदि सभी के कर्तव्यों का विधान दिया है। माता सीता का चरित्र एक उज्ज्वल पत्नी और माता का चरित्र है, लक्ष्मण और भरत का चरित्र आदर्श भाइयों का चरित्र है, राजा दशरथ का चरित्र 'प्राण जाय पर वचन न जाई' राजा का चरित्र है, राम का चरित्र वीर क्षत्रिय और मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र है, हनुमान का चरित्र सच्चे सेवक का यशस्वी

रूप है। रावण, कुम्भकर्ण और मेघनाथ के चरित्र भी नसूने के चरित्र हैं, जिनमें मानव शक्ति के कितने ही अद्भुत चमत्कार हैं। मन्दोदरी और सुलोचना जैसी सतियों के चरित्र रामायण में ही हैं।

इस प्रकार सन्त ने 'रामचरित मानस' के पाठों के माध्यम से जीवन के लिये कोटि कोटि सन्देश दिये हैं, विशेष में सामान्य सत्य चरितार्थ हैं। जीवन की हर परिस्थिति के लिये उनके आदर्श बाक्य हैं।

क्रोध न करने के लिये तुलसीदास ने कहा है:—

क्रोध पाप का मूल ।

जेहि बस जन अनुचित करै, करै विद्व प्रतिकूल ।

कामी को चेतना देते हुए उन्होंने कहा:—

कामी कौन कलंक न लेही ।

उत्तर काण्ड में गरुड़ जी के कागभुशुण्डि जी से सत प्रश्न और कागभुशुण्डि जी के प्रश्नों के उत्तर में तुलसीदास ने श्रेष्ठ आप्तवाक्य रचे हैं। गरुड़ जी ने पूछा— सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? सबसे बड़ा दुःख क्या है? सन्त और असन्त का स्वभाव बताने की कृपा करो? पुण्य क्या है और पाप क्या है? मानस रोग क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर में तुलसीदास की वाणी सुनिये:—

नर-तनु सम नहि कवनिउ देही ।

जीव चराचर जाचत जेही ॥

नरक-स्वर्ग अपवर्ग निसेनी ।

ग्यान-बिराग-भगति सुख देनी ॥

सो तन धरि हरि भजहि न जे नर ।
 होहि विषय रत मन्द मन्दतर ॥
 काँच किरचि बदले जिमि लेहो ।
 कर ते डारि परस मनि देहो ॥
 नहि दरिद्र सम दुख जग माहीं ।
 सन्त मिलन सम सुख कछु नाही ॥
 पर उपकार वचन मन काया ।
 सन्त सहज सुभाव खगराया ॥
 सन्त सहहि दुख परहित लागी ।
 पर-दुख-हेतु असन्त अभागी ॥
 दुष्ट उदय जग आरत हेतू ।
 जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू ॥
 सन्त उदय संतत सुखकारी ।
 विश्व सुखद जिमि इन्द्रु तमारी ॥
 परम धरम सुति बिदित अहीसा ।
 पर निन्दा सम अघ न गिरीसा ॥
 सबकै निन्दा जे जड़ करही ।
 ते चमगादुर होई अवतरही ॥
 सुनहु तात अब मानस रोगा ।
 जेहि ते दुख पावहि सब लोगा ॥

मोह सकल व्याधिन कर मूला ।
 तेहि ते पुनि उपजइ बहु सूला ॥
 काम वात कफ लोभ अपारा ।
 क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥
 प्रीति करहिं जौ तीनिउ भाई ।
 उपजइ सन्निपात दुखदाई ॥

ये हैं सन्त तुलसीदास के वे सत्य जो सर्वहितकारी हैं। ममता, ईर्ष्या, हर्ष, विषाद, अहंकार, दम्भ, तृष्णा आदि ऐसे रोग हैं, जिनसे झूत की बीमारी की तरह वचने का सन्देश तुलसीदास ने दिया है। ये बीमारियाँ जब मनुष्य के चिपट जाती हैं तो करोड़ों औषधियों से भी ठीक नहीं होतीं, इनका उपचार केवल राम-भक्ति है। हरिभजन ही मनुष्य के उद्धार का मूल मन्त्र है। सन्त ने कहा है:—

वारि मथे धृत होइ वरु, सिकता ते वरु तेल ।

बिनु हरि भजन न भव तरय, यह सिद्धांत अपेल ॥

हरि भजन सन्त तुलसीदास का मूल मन्त्र है। राम भक्ति को ही सन्त ने नर तन का परम लक्ष्य माना है। राम ही जीवन सिद्धि के माध्यम हैं, राम ही थिगड़ी को बनाने वाले हैं, राम समर्थ हैं, जो निराधार को आधार देते हैं। तभी तो सन्त ने कहा है:—

मसकहि करइ बिरंचि प्रभु, अजहि मसक ते हीन ।

अस बिचारि तजि संसय, रामहिं भजहि प्रवीन ॥

तुलसीदास राम भक्त थे। रामायण के अक्षर अक्षर में उनके राम हैं। वे राम जिनके राज्य में दैहिक, दैविक और भौतिक ताप

नही सताते थे, वे राम जो अखिल विश्व में रमे हुए हैं, वे राम जो दशरथ-मुन के साथ साथ परब्रह्म परमेश्वर हैं, जो हमारी संस्कृति भक्ति और शक्ति के स्वरूप हैं। उन राम की उपासना, उन राम की भक्ति ही तो 'रामचरित मानस' की रचना का मुख्य लक्ष्य है। विनीत तुलसीदास ने पूर्ण श्रद्धा से अपने राम के चरणों में कितनी लगन से नमस्कार किया है, देखिये:—

साधक सिद्ध विमुक्त उदासी ।

कवि कोविद कृतग्य संन्यासी ॥

जोगी सूर सुतापस ग्यानी ।

धर्म निरत पंडित बिग्यानी ॥

तरहि न विनु सेये मम स्वामी ।

राम नमामि नमामि नमामी ॥

तुलसीदास जहाँ महान सन्त थे वहाँ लौकिक रीतियों को भी खूब जानते थे। परिस्थिति विशेष के अनुसार उनकी वाणी की कितनी ही उक्तियाँ हैं। व्यवहार जगत के वे जागरूक कवि हैं। वे कितने बड़े मनोवैज्ञानिक थे, यह हमें उनकी पंक्ति पंक्ति से पता चलता है। जीवन और जगत के मन्थन से उन्होंने जो अमृत के भरने दिये हैं वे जीवन और जगत को सदा सींचते रहेंगे। कुछ उदाहरण देखिये :—

दोषु लखन कर हम पर रोषु, कहुँ सुधाई ते बड़ दोषु ।

टेढ़ जानि संका सब काहु, बक्र चन्द्रमा असइ न राहु ॥

और—

जिमि स्वतन्त्र हूँ बिगरै नारी ।

नारि धरम पति देव न दूजा ।

*

जैसी हो होतव्यता तैसी बन सहाय ।
आप न जावै ताहि पै ताहि तहाँ लै जाय ॥

*

धीरज धरम मित्र अरु नारी, आपद काल परखिये चारी ।

*

एहि ते अधिक धर्म नहिं दूजा, सादर सासु-ससुर-पद-पूजा ।

*

हठ बस सब संकट सहै, गालब नहुप नरेस ।

*

पराधीन सपनेहु सुख नाहीं ।

*

दुष्ट संग जनि देहि विधाता ।

एहि ते भला नरक कर बासा ॥

तुलसीदास सन्त और भक्त पहले, पीछे कवि थे, पर उनका कवित्व गौण नहीं हुआ। वे सर्वतोमुखी प्रतिभाशाली कवि हैं। उनके काव्य में उनसे पूर्व और बाद की सभी शैलियाँ हैं। वे रसों के कवि हैं। उनके भाव, उनकी भाषा, उनकी अभिव्यक्ति सभी में अद्भुत चमत्कार हैं। कोई ऐसा अलंकार नहीं जो उनके काव्य में नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जो उन्होंने नहीं कही। बात यह है कि बात की बात कही, कविता की कविता लिखी और आराध्य की पूजा भी की। उनके

वात की बात और कविता की कविता इस वर्षा वर्णन में देखिये:-

धन घमण्ड नभ गरजत घोरा ।
 प्रिया हीन डरपति मन मोरा ॥
 रामिनी दमक रही धन माहीं ।
 खल कैं प्रीति यथा थिर नाहीं ॥
 बरपहि जलद भूमि नियराये ।
 जथा नवहिं वुध विद्या पाये ॥
 ब्रुंघ अघात सहै गिरि कैसे ।
 खल के वचन सन्त सहै जैसे ॥
 अद् नदी भरि चली तोराई ।
 जस थोरेहु धन खल इतराई ।
 भूमि परत भा ढाबर पानी ।
 जनु जीवहि माया लपटानी ॥
 सिमटि सिमटि जल भरहि तलावा ।
 जिमि सदगुन सज्जन पहि आवा ॥
 सरिता जल जलनिधि महुं जाई ।
 होई अचल जिमि जिउ हरि पाई ॥

हरित भूमि तुण संकुल, समुभि परहि नहि पन्थ ।

जिमि पाखण्ड विवाद तें लुप्त होहिं सदग्रन्थ ॥

गोस्वामी जी कोरे भक्त नहीं थे, वे बड़े ज्ञानी थे । उन्होंने भक्ति और ज्ञान का सामंजस्य किया है । उन्होंने कहा है-- "भक्ति जानहि

नहिं कछु भेदा" । ज्ञान की जो वाणी स्वामी जी ने दी है वही तो जीवन सिद्धि की ज्योति है। आओ हम सब मिलकर मन्त की वाणी का अनुसरण करें और जग को अपने चरित्र ने जगमगाएं।

सन्त दादू

साबरमती नदी वेग से बह रही थी। लुग्रों के थोड़ों से दूर दूर तक गर्म धूल आँखों में अन्धकार भोक रही थी। गर्म रेत से पैर जले जाते थे। हवा इतनी भयावनी थी कि परिदे पेड़ों के कोटरों में चिपके हुए थे, जलचर पानी की तह में मौन थे, और पलचर अपने अपने घरों में घुसे हुए थे।

किन्तु प्रकृति की इस विभीषिका में भी एक प्यासा ब्राह्मण लोदीराम साबरमती नदी की ओर जल पीने तेजी से चला जा रहा था। उसकी गति साबरमती की गति से कम न थी। उसके हृदय में, मस्तिष्क में, श्रोतों में अभावों की ज्वाला जल रही थी। न उसके पास धन था, न खाने को रोटी थी, न रहने को मकान था, न कोई प्रीलाभ थी, न किसी का सहारा था। फिर वह दुनिया में जीकर क्या करे? बिचारी ब्राह्मणी का ध्यान कभी कभी उसके परेडगमगा जाता था, पर निराशा फिर उसे साबरमती में डूबने के लिये विवश कर देती थी।

उद्वेग में कांपते हुए लोदीराम ने नदी किनारे पहुँच जसे ही बने को पैर बढ़ाया वैसे ही उसने देखा कि काठ का एक सन्दूक नदी के बीच में लहरों से टकराता हुआ बह रहा है। ब्राह्मण को प्राणों का भय तो था ही नहीं वह जल में उतर सन्दूक तक पहुँच गया।

जल ही में उसने जो सन्दूक खोलकर देखा, तो देखता क्या है कि उसमें एक चाँद के टुकड़े सा शिशु खेल रहा है।

लोदीराम सन्दूक नदी से बाहर निकाल लाया। सन्दूक में लेटे हुए उस परम ज्योतिर्मय छोटे से बालक को अपनी गोद में निकाल लिया, खुशी से उछलता हुआ घर वापिस आया और ब्राह्मणी की गोद में भगवान् की कृपापूर्ण देन वह बच्चा दे दिया। ब्राह्मणी ने बच्चे को ईश्वर की दया मान कर बड़े वात्सल्य से पालना आरम्भ किया। देव की कृपा से ब्राह्मणी के स्तनों में दूध भी आ गया। इस रूप में लोदीराम को दादू नामक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।

दादू का प्राकट्य सम्बन् १६०१ की चैत्र शुक्ला अष्टमी गुरुवार को अहमदाबाद में हुआ था। धर्मपिता और धर्ममाता ने इन्हें बड़े लाड़ चात्र से पाला। बालक के आने से घर में ऋद्धि सिद्धियों का वास होगया, किसी बात की कमी न रही। माता पिता के प्यार से दादू भी दूज के चाँद की तरह दिनोदिन बढ़ने लगे। बचपन में ही इनकी भावनायें भगवान् की ओर थीं। इनकी लगन इतनी थी कि ग्यारह वर्ष की अवस्था में ही भगवान् श्रीकृष्ण ने इन्हें वृद्ध रूप में दर्शन दिये और तत्त्व ज्ञान का उपदेश दिया।

कुछ ही समय बाद दादू जी दुनिया से विरक्त हो गये। ये सत्संग के लिये घर से निकल पड़े। इनका मन ज्ञान और भक्ति में पूर्ण रूप से रम गया। ये हर समय भजन, कीर्तन, पूजा पाठ, साधुसङ्ग आदि में लीन रहने लगे।

इनको वैराग्य में लीन देख माता पिता इन्हें घर पकड़ लाये और इनका बड़ नगर में विवाह कर दिया। पर क्या सांसारिक बन्धन

इनको बांध सकते थे ? उन्नीस वर्ष की अवस्था में ये फिर घर से निकल भागे और जीवन की रुई पिनते हुए ये शहरों में घूम बनों में पहुँचे, जहाँ इन्होंने बारह वर्ष तक कठिन तपस्या करके पूर्ण सिद्धि प्राप्त की। ये सदैव भक्ति रस में लड़े रहते थे। इनको वचन सिद्धि भी प्राप्त थी, पर ये चमत्कार प्रायः दिखाते नहीं थे। अन्तर्मुख रहकर अनन्त ज्योति के ध्यान, अभ्यास, स्मरण, जप, तप, पूजा, पाठ आदि में लय होने को ही ईश्वर प्राप्ति के श्रेष्ठ साधन मानते थे। अभ्यास करते करते ये सिद्ध साधु हो चुके थे।

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, शान्ति, अपरिग्रह, वैराग्य, तितिक्षा, क्षमा, दया, समता, निडरता, एवं आर्जव आदि सात्विक गुणों की प्राप्ति हेतु साधना करने वाले साधु दादूदयाल जी भारत के सिद्ध सन्त हुए हैं। हमारे सन्त दादू के कितने ही अनुयायी आज भी दादूपन्थी नाम से प्रसिद्ध हैं। यद्यपि दादूजी ने कोई सम्प्रदाय नहीं बनाया लेकिन इनके अनुयायियों द्वारा स्वयम् ही ब्रह्म सम्प्रदाय के नाम से एक सम्प्रदाय चल निकला।

कहा जाता है कि दादूदयाल जाति के चमार थे, किन्तु इससे क्या ! 'हरि को भजे सो हरि का होय'। हरि भक्त दादू चाहे हरिजन थे पर अपनी भक्ति भावनाओं से वे पहुँचे हुए साधु हो गये। बड़े बड़े साधुओं और जानियों ने उनके चरण छुवे। हरिजन साधु दादू के ब्रह्म सम्प्रदाय दादू पन्थ में सन्त मुन्दरदास, गरीबदास, रज्जव जी, चतुर्भुज जी, मोहनदास जी जैसे कितने ही प्रसिद्ध सन्त हुए हैं।

सिद्धान्तों की दृष्टि से दादू कबीर के ही मार्ग के अनुयायी हैं, किन्तु इनका चलाया हुआ पन्थ दादूपन्थ के नाम से पृथक् प्रसिद्ध

है। निर्गुण पन्थियों के समान दादूपन्थी भी अपने आपको निराकार का ही उपासक मानते हैं। दादूपन्थी न तिलक हैं, न माला पहनते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, हाथ में रखते हैं, और 'सन्तराम' कह कर अभिवादन करते हैं।

दादू की वाणी कबीर की सांगी से बहुत कुछ मिलती है। भाषा भी बहुत कुछ मिली जुली पच्छिमी हिन्दी है। राजस्थानी का मेल है। भावनायें बहुत साफ और लगन ईश्वर की व्यापकता का बहुत ही अनुभूति भरा चित्रण वाणी में है। जैसे—

धीव दूध में रमि रह्या, व्यापक सब ही ठौर ।

दादू वकता बहुत है, मथि काढ़ें ते और ॥

प्रभु के नाम की महिमा प्रायः सभी सन्तों ने गाई है। कबीर आदि ने भी ईश्वर के नाम को ही ईश्वर प्राप्ति का माना है। सन्त दादू ने भी राम नाम का मुग्ध कण्ठ से किया है।

दादू नीका नाँव है, तीन लोक तत सार ।

राति दिवस रटिबो करी, रे मन इहै विचार ॥

एकै अक्षर पीव का, सो तू सत करि जाणि ।

एक नाम सत्गुरु कह्या, दादू सो परवाणि ॥

दादू नीका नाँव है, हरि हिरदै न विसार ।

मूरति मन माहि वसै, साँसै साँस सँभार ॥

निमिष न न्यारा कीजिये, अन्तर सूँ हरि नाम ।
कोटि पतित पावन भये, केवल कहताँ राम ॥

जो राम नाम में लीन हो गया उसके हृदय में अनन्त ज्योति जगमगाने लगती है, उसकी वाणी से वे सन्देश फूटने लगते हैं जिनसे मानव का उत्थान होता है । सन्त का जीवन ज्ञान की पुस्तक है । वह अपने हृदय और बुद्धि से अमर जीवन देता है । साधु सन्त तो वही है जो अपनी अनुभूतियों से रहस्य को समझ कर समझा दे, और चरित्र निर्माण के लिये ऊँची शिक्षा दे । दादू दुनिया को बहुत सी विवेकपूर्ण भावनायें प्रदान कर गये हैं । उनकी कुछ ज्ञान-वाणी भिन्न भिन्न भावों की हैं ।

ज्ञान सबसे उत्तम है । मन और इन्द्री से बच जो उपकार के मार्ग पर चलता है वही ज्ञान के पथ पर है । सारे प्राणियों में एक ही आत्मा है, परमात्मा सब में है । दो दोहे सुनिये—

मन इन्द्री पसरै नहीं, अहनिशि एकै ध्यान ।
पर उपगारी प्राणिया, दादू उत्तिम ग्यान ॥
दादू एकै आतमा, साहिव है सब माहिँ ।
साहिव के नाते मिलै, भेष पन्थ के नाहिँ ॥

साधु वह है जो विषय विकार से दूर है । सन्त समागम से ही प्राणी का उद्धार होता है । जो साधु स्वाद छोड़ सत्पथ पर है उसके संग से जीवन सुधरता है । साधु की महिमा महान है । दादू जी ने कहा है—

विष सुख माहीं रमि रह्या, माया हित चित लाय ।
सोई सन्त जन ऊबरे, स्वाद छोड़ि गुण गाय ॥

हमारे सत

साध मिलै तब ऊपजै हिरदै हरि की प्यास ।
दादू संगति साध की, अविगत पुरबँ आस ॥
मनहीं सूँ मल ऊपजै, मन ही सूँ मल धोइ ।
सीख चलै गुरु साध की, तौ तू निर्मल होइ ॥
हरि साधू यों पाइये, अविगत के आराध ।
साधू संगति हरि मिलै, हरि संगत सूँ साध ॥

हरि स्मरण के बिना मानव जीवन निरर्थक है । जो प्रेम स्मरण में लीन है वही धन्य है । आत्मानन्द में ही सारे र जिसके हृदय में आराध्य की मूर्ति है उसके हाथ में सकल र्थ है, दादू जी ने कहा है—

अह निसि सदा सरीर में, हरि चिन्तित दिन जाइ ।
प्रेम मगन लयलीन मन, अन्तर गति लौ लाइ ॥

दादू आनंद आतमा, अविनासी के साथ ।
प्राणनाथ हिरदै बसै, तौ सकल पदारथ हाथ ॥

विषय निन्दा प्रत्येक सन्त ने की है, वास्तव में विषय निपस न की प्रगति में बाधक है । जो स्वाद मुक्त है वही शुद्ध सन्त

दादू विषय विकार सौं, जब लग मन रातार ।
तब लग चीत न आवई, त्रिभुवन पति दातार ॥
स्वाद लागि संसार सब, देखत पर लै जाइ ।
इन्द्री स्वारथ साच तजि, सबै बँधाणै आइ ॥

काल कनक अरु कामिनी, परिहरि इनका संग ।
 दादू सब जग जलि मुवा, ज्यों दीपक ज्योति पतंग ॥
 ज्यों घुन लागै काठ कौ, लौहै लागै काठ ।
 काम किया घट जाजरा, दादू बारह बाट ॥

मनुष्य मनुष्य से माँग कर अपने आप को गिराता है, ईश्वर के सहारे के अतिरिक्त किसी का सहारा ताकना बेकार है। वह हर समय हरेक का मददगार रहता है। वह जैसे चाहता वैसे ही मनुष्य को चलना पड़ता है। हमारी डोर प्रभु के हाथ है, वही हमारा ठौर है और वही हमारा मित्र—

करण हार करता पुरिष, हमकौं कैसी चिन्त ।
 सब काहू की करत है, सो दादू का मिन्त ॥
 डोरी हरि के हाथ है, गल माही मेरे ।
 बाजीगर का बन्दरा, भावै तहँ फेरे ॥
 कहै जे तू राखै साइयाँ, तौ मारि न सककै कोइ ।
 बाल न बाँका करि सकै, जो जग बैरी होइ ॥
 हम जीवै इहि आसरै, सुमिरण के आधार ।
 दादू छिटकै हाथ सूँ, तौ हमकूँ वार न पार ॥

सुख कहाँ है ? सुख केवल ईश्वर की शरण में है। वही जीवन है, वही ज्योति है और वही आनन्द है।

घर बन माही सुख नहीं, सुख है साँई पास ।
 दादू ता सूँ मन मिल्या, इन सूँ भया उदास ॥

इक लख चन्दा आणि घर, सूरज कोटि मिलाइ ।

'दादू' गुरु गोविन्द बिन, तौ भी तिमिर न जाइ ॥

मनुष्य की जो सिद्ध स्थिति किसी शव के साथ श्मशान
ती है वही यदि हर समय रहे तो वैराग्य के परमपद को प्राप्त
सकता है । वैराग्य साधु जीवन का सबसे बड़ा गुण है । अन्त
केवल शून्य ही रहता है तभी तो दादूजी ने कहा है—

यह घट काचा जल भरचा, बिनसत नाहीं वार ।

यह घट फूटा जल गया, समझत नहीं गँवार ॥

जब लगि साँस सरीर में, राम नाम ल्यों लाइ ।

दादू देही देखताँ, सब किस ही की जाइ ॥

दादू सबको पाहुणा, दिवस चारि संसार ।

औसरि औसरि सब चले, हम भी इहै विचार ॥

विरह के बिना विजय नहीं । विरह की ज्वाला में जो ज्योति
ती है वही जीवन को रास्ते दिखाती है । विरह से ही तो काव्य
उत्पत्ति हुई है । सन्त दादू जी में भी विरह की आग थी ।

बिरहिन रोवै रात दिन, भूरे मन ही माहि ।

दादू औसरि चलि गया, प्रीतम पाये नाहि ॥

राम बिरहिणी ह्वै गया, बिरहिणि ह्वै गइ राम ।

दादू बिरहा बापुरा, ऐसे करि गया काम ॥

तलफि तलफि बिरहणि भरै, करि करि बहुत विलाप ।

विरह अगनि में जल गई, पीव न पूछै बात ।

सहजै मनसा मन सधै, सहजै पवना सोइ ।

सहजै पाँचो थिर भये, जे चोट बिरह की होइ ॥

शुभ दीपक पर जल कर शहीद हो जाता है तभी तो वह का प्रतीक है । प्रेम ही तो जीवन का सत्य है, जहाँ प्रेम है स्वर्ग है । इस लिये दादू प्रेम के भँवरे थे ।

प्रेम भगति माता रहै, ताला बेली अंग ।

सदा सपीड़ा मन रहै, राम रमै उन संग ॥

भँवरा लुबधी वास का, मोह्या नाद कुरंग ।

दादू का मन राम सूँ, ज्यों दीपक ज्योति पतंग ॥

भावुकता सन्त और कवि की निधि होती है । भावुक चाहता कि वह प्रीतम के नयनों की पुतली बना रहे तभी तो दादू जी यही पश्चाताप था कि—

दादू जीवण मरण का, मुझ पछितावा नाहि ।

मुझ पछितावा पीव का, रह्या न नैनहु माहि ॥

कीया मन का भावता, मेटी आग्याकार ।

क्या ले मुख दिखलाइये, दादू उस भरतार ॥

भक्ति के बिना जीवन में क्या धरा है, भक्ति ही से तो सन्त प्राप्त होता है । हरि की भक्ति ही तो सन्त का उद्देश्य है । भक्ति के जीवन घृणास्पद है—

जा कारण जग जीजिये, सो पद हिरदै नाहि ।

दादू हरि की भगति बिन, धृग जीवन कलि माहि ॥

कबीर की तरह दादू जी भी माया को दमकता हुआ जाल मानते रहे हैं। उन्होंने कहा है—

यह सब माया मिरिग, भूठा भिलमिल होय ।
दादू चिलका देखि करि, सत करि जाना सोय ॥

ये ही नहीं दादू जी के कितने ही उपदेश हैं। बुरा करने वाले को भी वे उपदेश देकर शान्त रहते हैं—

तू मुझको मोटा कहे, हौं तुझे बड़ाई मान ।
साँई कूँ समझै नहीं, दादू भूठा ग्यान ॥
जे तूँ समझै तौँ कडूँ, साँचा एक अलेप ।
डाल पात तजि मूल गहि, क्या दिखलावै भेष ॥

दादूदयाल ने केवल आध्यात्मिक उपदेश ही नहीं दिये अपितु राष्ट्रीय एकता के लिये भी उनकी वाणी से अमृत बरसा, “हिन्दू तुरक न जागूँ दोइ” जैसे प्रवचन भी दादू जी के हैं। समाज में घुसी हुई उन सभी कुरीतियों के प्रति दादूदयाल ने कुछ न कुछ कहा है, जिनसे समाज में दूषित कीड़े फैलते हैं, और जीवन नाश को प्राप्त होता है। सन्त के जीवन का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उसकी साधना और उसके चरित्र से मानव का व्यक्तिगत और सामाजिक उत्थान होता है, जीवन में पवित्रता आती है।

सन्त दादूदयाल प्रकट हुए और फिर छिप भी गये, पर मानव के लिये वे शाश्वत सत्य छोड़ गये जिनसे जीवन प्रकाशमान होता है। समाज में नई रोशनी आती है। मनुष्यों में मेल जोल बढ़ता है, उनमें सत्य प्रेम और अहिंसा के सद्बिचार बढ़ते हैं, और फिर एक

दिन होता है जब मानव अपने साधु-जीवन से देवत्व को प्राप्त होते हैं। सन्त दादू जी राष्ट्रिय, सामाजिक, मानसिक और मानवीय आत्मिक्य के उज्ज्वल दिवाकर हैं।

सन्त मलूक दास

“अजगर करै न चाकरी, पंछी करै न काम ।
दास मलूका कह गये, सब के दाता राम ॥”

राम भरोसे मस्त गाने वाले, फक्कड़ सन्त मलूकदास औरंगजेब के समय में निर्गुण मत के नामी सन्तों में हुए हैं। इनकी गद्दियाँ, कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नैपाल और काबुल तक में कायम हैं। ये बड़े चमत्कारी सन्त थे। एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को ऊपर उठा कर बचा लिया था।

ऐसे महिमावान सन्त मलूकदास का जन्म लाला सुन्दरदास खत्री के घर में बैशाख कृष्ण पंचमी सम्बत् १६३१ में कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ था। १०८ वर्ष की दीर्घ आयु में इन्होंने इहलोक लीला संवरण की। अपने जीवन में इन्होंने जो कुछ गाया, जो भक्ति का समुद्र उड़ेला, वह ज्ञान का कोष और रत्नों का भण्डार है।

हमारे सन्त प्रायः भक्त और कवि हुए हैं। इनके जीवन का इतिहास उनकी भक्ति और पद्यों में बुला-मिला रहता है। उसके भाव, उसकी उपासना, उसकी गतिविधि सब कुछ उसकी वाणी में मुखर रहती हैं। सन्त-वाणी ही सन्त के हृदय का दर्पण है।

जिसका हृदय शुद्ध है, जिसने स्वयं को राम-रस में घो
दिया, जो प्रेममय हो जाता है, जिसने काम, क्रोध, मद, लो
आदि रोगों का त्याग कर दिया है, जिसके अन्तर की आँखे खु
हुई हैं, जो पशु-पक्षी आदि सभी में आत्मैक्य का अनुभव करता
वह सन्त है ।

सन्त मल्लूकदास दुनिया के नश्वर सुखों से दूर राम नाम
लीन आर्ष कवि थे । राम नाम की महिमा उन्होंने मुग्ध कण्ठ
गाई है । जो सन्त होते हैं वे राम नाम में रमे रहते हैं । स
मल्लूकदास ने प्रेमपूर्ण वाणी में राम नाम के जो दोहे लिखे हैं
राम भक्ति के अमृत स्रोत हैं । कुछ दोहे कण्ठस्थ कीजिये—

राम राम के नाम की, जहाँ नहीं लवलेस ।
पानी तहाँ न पीजिये, परिहरिये सो देस ॥
राम नाम जिन जानिया, तेई बड़े सपूत ।
एक राम के भजन बिन, काँगा फिरे कपूत ॥
उहाँ न कबहूँ जाइये, जहाँ न हरि का नाम ।
डोगंबर के गाँव में, धोबी का क्या काम ॥
राम नाम एक रती, पाप के कोटि पहाड़ ।
ऐसी महिमा नाम की, जा रिकरै सब छार ॥
राम नाम औपध करो, हिरदै राखो याद ।
संकट में लौ लाइये, दूर करै सब व्याध ॥

जिसकी जिह्वा पर राम नाम का दीपक जगमगाता रहता
उसके अन्तर में भक्ति और प्रेम का उमड़ना स्वाभाविक ही है ।

मलूकदास भक्ति और प्रेम के दारह-मासी भरने थे। उनके हृदय से भक्ति भावना के प्रेम भरे वे दोहे फूटे हैं जो सन्त काव्य की श्रेष्ठ अनुभूतियाँ हैं। क्या ही अच्छा हो यदि संघर्ष और अशान्ति के विषले काल में हम भगवद्-प्रेम के इन दोहों का रस लें :—

प्रेम नेम जिन ना कियो, जीतो नाही मैन ।
 अलख पुरुष जिन ना लख्यो, छार परो तेहि नैन ॥
 कठिन पियाला प्रेम का, पिये जो हरि के हाथ ।
 चारों जुग माता रहै, उतरै जिय के साथ ॥
 बिना अमल माता रहै, बिन लस्कर बलवंत ।
 बिना बिलायत साहेबी, अंत माहि वंअंत ॥
 करै भक्ति भगवंत की, करै कबहुं नहि चूक ।
 हरि रस में राचो रहै, साँची भक्ति मलूक ॥
 सोई पूत सपूत, जो भक्ति करे चित्त लाय ।
 जरा मरन तें छुटि परै, अजर अमर होइ जाय ॥

जिसके हृदय में भक्ति और प्रेम है उसकी वाणी से जो कुछ निकलता है वह उपदेश होता है। हमारे सन्तों ने मानव कल्याण के लिए कितने ही उपदेश दिये। बनारसी साधुओं के प्रति मलूकदास ने कहा है—

भेष फकीरी जे करै, मन नहि आवै हाथ ।
 दिल फकीर जे हो रहे, साहेब तिन के साथ ॥

और जिनके हृदय में दया है, धर्म है, और मीठा बोलते हैं वे ही महान हैं :—

दया धर्म हिरदै बसै, बोलै असृत बैन ।
तेई ऊँचे जानिये, जिनके नीचे नैन ॥
सब पानी की चूपरी, एक दया जग सार ।
जिन पर आतम चीन्हिया, ते ही उतरे पार ॥

प्रायः देखा जाता है कि वादविवाद में क्रोध बढ़ जाता है और फिर अनिष्ट ही होता है। इस बला से बचने के लिये मलूकदास ने इस प्रकार कहा है :—

मलूक वाद न कीजिये, क्रोधै देव बहाय ।
हार मानु अनजान तें, बक बक मरें बलाय ॥

गर्व मनुष्य के नाश की जड़ है। अहंकार मनुष्य की शक्ति की कमजोरी है। कोई अपनी सुन्दरता का घमण्ड करता है, किसी को अपनी ताकत का अभिमान होता है, कोई अपने धन के मद में किमी से बात नहीं करता। किन्तु तन या धन किस के साथ जाता है! दुनिया में केवल भलाई शेष रहती है। सन्त ने अपनी यह संवेदना इस प्रकार प्रकट की है :—

गर्व भुलाने देह के, रुचि रुचि बाँधै पाग ।
सो देही नित देखि कै, चोंच सँवारे काग ॥
गर्व न कीजे बावरे, हरि गर्व प्रहारी ।
गर्बहि ते रावन गया, पाया दुख भारी ॥

सुन्दर देही पाइ कै, मत कोइ करै गुमान ।

काल दरेरा खायगा, क्या बूढ़ा क्या जवान ॥

सुन्दर देही देखिकै, उपजत है अनुराग ।

मढ़ी न होती चाम की, जीवन खाते काग ॥

इस जीने का गर्व क्या, कहाँ देह की प्रीति ।

बात कहत ढह जात है, बारू की-सी भीति ॥

देही होय न आपनी, समझु परि है मोहिं ।

अबहीं तैं तजि राख तू, आखिर तजि है तोहिं ॥

माँगने से बड़ा कोई पाप नहीं । आब, आदर, नयनों का स्नेह ये सब उसी समय चले जाते हैं जब कोई हाथ फँलाना है ।

सन्त तुलसीदास ने भी कहा है "तुलसी कर पर कर करहु", करतल करहु" न कोय ।" सचमुच माँगना और मरना समान है । इसनिये

किसी को माँगना नहीं चाहिये । माँगने से तो मरना ही अच्छा है,

सन्त बाबा मलूकदास ने कहा है:—

आदर मान महत्व सत, बालापन को नेह ।

यह चारों तबहीं गये, जबहिं कहा कछु देह ॥

हर मनुष्य प्रभुता की चाह में पागल हुआ फिरता है । पर प्रभु की प्राप्ति के बिना प्रभुता दानी नहीं होती । बाबा जी ने बताया है:—

प्रभुता ही को सब मरै, प्रभु को मरै न कोय ।

जो कोई प्रभु को मरै, तो प्रभुता दासी होय ॥

सन्तों ने जो उपदेश दिये हैं वे तभी दिये हैं जब उन पर चल चल कर वे स्वयम् तप लिये, जब वे तपते तपते सन्त हो गये । आश्चर्य तो यह है कि दुनिया में मनुष्य सोता हुआ जागता है और जागता हुआ सोता है । यह दुनिया खुली आँख सोने वालों की है । कोई बिरला ही होता है जो जागता हुआ नहीं सोता । सन्तों की यह विशेषता रही है कि वे उन व्यसनों को त्याग चुके थे जो जीवन को कुरेद कुरेद कर खाते हैं । खुली आँखों सोने वालों को जागरूक होकर जगाने वालों की प्रभातियाँ सुनिये:—

सोते सोते जन्म गँवाया ।

माया मोह में सानि पड़ो सो, राम नाम नहि पाया ॥

मीठी नींद सोये सुख अपने, कबहु नहि अलसाने ।

गाफिल होके महल में सोये, फिर पाछे पछताने ॥

जिसका ईमान ठीक है वही जागता है । जिसका ईमान नहीं उसका कुछ भी नहीं । मलूकदास ने प्यार से कहा है:—

ऐ अजीज ईमान तू काहे को खोवै ।

हिय राखै दरगाह में तो प्यारा होवै ॥

लालच बुरी बला है । तभी तो मलूकदास ने भी लिखा है:—
“सबसे लालच का मत खोटा ।” यह लालच की लज्जत बड़ी मीठी किन्तु विषैली होती है । सन्त लालच से दूर थे:—

इस दुनियाँ नाचीज के तालिब हैं कुत्ते ।

लज्जत में मोहित हुए, दुःख सहे बहुते ॥

इस दुनिया नाचीज के जो आसिक होवै ।

भूलै जात खुदाय को, सिर धुन धुन रोवै ॥

इसलिये यदि इस चमकती हुई दुनिया का आनन्द लेना चाहते हो तो ऐसे लो जैसे कमल क्रीचड़ का रस लेता है, जैसे सूरज दुनिया को छूता है, जैसे "राकाँ वाँका" ने दौलत को देखा था। दुनिया दीखने में बहुत खूबसूरत है पर वास्तव में बड़ी ठगनी है। जो ठगाई में न आकर आनन्द लेते हैं वे ही तो परमानन्द को प्राप्त होते हैं।

दुनिया में फूल भी हैं और काँटे भी। सन्तों ने काँटे चूटे हैं और फूल चुग चुग कर दिये हैं। अब यह हमारा काम है चाहे शूलों पर चले, चाहे फूलों पर। किन्तु अच्छा हो यदि हम यह सोच कर चले कि मृत्यु बहुत निकट है, अतः हम कोई ऐसा काम न करें जिसे करके पछताना और दुःख उठाना पड़े।

बाबा मलूकदास के चरण चिह्नों में यही चित्रित है कि 'ऐ अजीज ! तू जी और जीने दे' के सिद्धान्त से भी ऊँचा उठ, अर्थात् तू दूसरे के लिये स्वयम् को गला दे।

सन्त तुकाराम

एक दिन एक किसान अपने खेत से गन्ने कमर पर लाद कर चला। मार्ग में बालकों की भीड़ उसके साथ हो ली। किसान चलता जाता था और बच्चों को गन्ने बाटता जाता था। जब वह घर पहुँचा तो उसके पास केवल एक गन्ना बचा। घरवाली अपने पति के हाथ में सिर्फ एक गन्ना देख भभक उठी और उसने बिचारे से गन्ना छीन उसकी कमर पर इस जोर से मारा कि गन्ने के दो टुकड़े हो गये।

पत्नी के हाथ से गन्ने की चोट खाकर किसान ने हँसते हुए कहा— “बड़ा अच्छा किया तुमने एक गन्ने के दो टुकड़े कर दिये, एक अपने लिये और एक मेरे लिये। लो एक तुम चूस लो और एक मैं चूस लूँगा।”

यह है सन्त तुकाराम की सहन शक्ति का एक नमूना और वह भी उस समय का जब वे सन्त नहीं गृहस्थी थे। गृहस्थ जीवन की ऐसी घोर घटनाओं ने ही तो तुकाराम को एक दिन पूर्ण सन्त बना दिया। आधे दिन की आपत्तियों की आग में तप तप कर ही तो वे कुन्दन से पारस हो गये। कहीं जो असफल और दुखी सांसारिक होता है वही तो किसी दिन सन्त नहीं बन जाता!

श्री तुकाराम का जन्म सम्बत् १६६५ में दक्षिण के देहू नामक गाँव में हुआ था। इनकी माता का नाम कनका बाई था और पिता

का नाम बोलोजी था। यह परिवार भगवद्भक्त था और श्रेष्ठ माना जाता था। तुकाराम का विवाह तेरह वर्ष की आयु में ही हो गया था। बधू का नाम रखूबाई था। वह दमे की बीमार निकली। इसलिये तुकाराम की दूसरी शादी हुई। दूसरी बहू 'जिजाई' बड़ी ही कर्कशा आई। तुकाराम जी के सावजी और कान्हा जी दो भाई थे। सावजी बड़े थे और कान्हा जी छोटे।

तुकाराम जी के पिता बोलोराम जी साधु प्रकृति थे। जब वृद्ध हुए तो वे घर-मूहस्थी तथा काम काज सब छोड़ विरक्त हो गये। तुकाराम के बड़े भाई साहब जी पहले से ही विरक्त थे। अतः घर का सारा बोझ तुकाराम पर ही आ पड़ा। उस समय इनकी अवस्था सतरह वर्ष की थी। इन्होंने बड़ी चतुरता से सारा काम सँभाला। कुछ समय तक दैव की कृपा रही और काम ठीक चलता रहा।

पर चार वर्ष बाद तुकाराम जी पर दुःख पर दुःख आने लगे। संकट के पहाड़ उन पर टूट पड़े, उनकी परीक्षा पर परीक्षा होने लगीं, माता पिता का देहावसान हुआ, बड़े भाई की पत्नी स्वर्ग सिधारीं, छोटे भाई का परिवार अपना परिवार सभी को कमाकर खिलाना इनके लिये दुर्भर होने लगा। काम चला नहीं। जिन पर इनका रूपया था उन्होंने करबट नहीं ली, उल्टे ये कर्जदार होने लगे। ये सब प्रपंच सन्त प्रकृति के विचारे तुकाराम के बस के कैसे हो सकते थे।

साधु को ठगने वालों की दुनिया में कमी नहीं, ये भी बार बार ठगे गये। एक बार किसी ने इनको मुलम्मा चढ़े हुए पीनल के जेवर

सोने के मोल बेच दिये । एक बार ये कुछ माल बेचकर ढाई सौ रुपये घर ला रहे थे । रास्ते में एक दुखिया मिल गया । उसे देख कर इन्हें दया आ गई और अपने सब रुपये उसे दे दिये ।

घर में पैसा नहीं रहा । कुछ समय बाद इनकी पत्नी और पुत्र भी चल बसे । दुःख और शोक की सीमा न रही, मानो तमाम दुःख तुकाराम पर इसलिये टूटे कि वे इस दुनिया के प्रपंचों से दूर भाग भगवान् की शरण में चले जायें ।

अन्ततोगत्वा यही हुआ । दुनिया की ज्वाला से भुलसे हुए तुकाराम राम की शरण खोजने लगे । उन्होंने भगवान् के भजन में ली लगा ली । सारे जंजालों को छोड़ वे ईश्वर की उपासना में लीन हो गये । अपने आराध्य को पुकारते हुए कभी वे इस मन्दिर में जाते तो कभी उस मन्दिर में दिखाई देते । कभी इन्द्रायणी के इस तट पर गाते तो कभी इन्द्रायणी के उस तट पर भजन करते । कभी इस पर्वत पर एकान्त स्थल में जानेश्वरी या एक नयी भागवत का पारायण करते तो कभी उस पर्वत पर नाम स्मरण करते रहते । आज यहाँ हरिकीर्तन में मस्त हैं तो कल वहाँ हरिभजन का आनन्द ले रहे हैं ।

श्रम भी एक प्रकार की ईश्वरप्राप्तिसाधना है । तुकाराम की पुत्रा का एक रूप श्रम भी है,— उन्होंने श्री विष्णुम्हण यात्रा के बनवाये हुए श्री विठ्ठल मन्दिर की जो चट्टान टूट पट गया था अपने हाथ से मरम्मत की । इस प्रकार कठिन साधनाओं के फलस्वरूप श्री तुकाराम जी की चिन्तार्थन ईश्वर भजन में इष्ट होनी चली गई ।

जो श्रम से ली लगा जाता है उसके फल से भी फलने लगता

है। प्रेम के समुद्र से ही तो कविता के मोती निकलने लगते हैं। कीर्तन करते करते तुकाराम जी के कण्ठ से “अभंग” निकलने लगे। बड़े बड़े विद्वान् ब्राह्मण और साधु सन्त इनकी जानमयी कविताओं को श्रवण कर रस विभोर हो जाते थे और नत हो जाते थे सन्त की प्रेमभरी भावनाओं के आगे।

यह संसार है, इसमें पत्थर बन कर रास्ता रोकने वालों की कमी नहीं। जैसे जैसे सन्त तुकाराम का प्रभाव बढ़ने लगा वैसे ही वैसे वेद वेदान्त के प्रकाण्ड पण्डित तथा कर्मनिष्ठ ब्राह्मण इनसे चिढ़ने लगे। उनको तुकाराम जी की तुकें अच्छी नहीं लगीं। भला एक शूद्र जाति वाले के मुख से श्रुत्यर्थ बोधक मराठी अभंग सुन कर वे कैसे न धधक उठते। भला एक शूद्र को एक सन्त मान कर उसकी पूजा कैसे हो सकती है।

उन्होंने हाकिमों से मिल कर तुकाराम को झूठ से निकल जाने की आज्ञा दिलादी। इस पर तुकाराम जी पण्डित रामेश्वर भट्ट के पास गये और विनीत हांकर बोले— “मेरे मुख से जो ये अभंग निकलते हैं, सो भगवान् पाण्डुरंग की आज्ञा से ही निकलते हैं। आप ब्राह्मण हैं, ईश्वरवत हैं। आपकी आज्ञा है तो मैं अभंग बनाना छोड़ दूंगा, पर जो अभंग बन चुके हैं और लिखे रखे हैं उनका क्या करूँ” ?

भट्टजी ने कहा— “उन्हें नदी में डुबा दो।”

ब्राह्मण की आज्ञा मान कर तुकाराम जी ने ऐसा ही किया, भगवद्भक्ति के सारे अभंग, इन्द्रायणी नदी में डुबा दिये। सन्त ने अभंगों की बंहिर्या इन्द्रायणी में डुबो तो दीं पर उनके हृदय को

चोट बहुत लगी। वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, विट्ठल मन्दिर के सामने एक शिला पर बैठ गये, और उन्होने प्रतिज्ञा करली कि या तो भगवान् मिलेंगे या इस शरीर का ही अन्त होगा।

भक्त तुकाराम का अनशन और सत्याग्रह देख भगवान् का आसन डोल उठा। तुकाराम को अन्न-जल लिये जब तेरह दिन बीत गये तो श्री पाण्डुरङ्ग ने उन्हें साक्षात् दर्शन दिये। वे बाल वेश धारण करके सन्त के सामने प्रकट हो गये। तुकाराम जी ने उनके चरणों को अपनी आँखों के जल में डुबो दिया। भगवान् ने सन्त को उठा कर अपनी छाती से लगाया और कहा—“तुम्हारे अभंग इन्द्रायणी नदी में से मैंने तभी निकाल लिये थे। वे डूबे नहीं हैं, तुम्हारे भक्तों में मैं बाँट आया हूँ, उनकी वाणी पर वे गूँज रहे हैं।”

इस साक्षात्कार से तुकाराम जी को अलौकिक आनन्द और परम शान्ति मिली। इस साक्षात्कार के बाद वे पन्द्रह वर्ष तक इस भूतल पर सत्य, प्रेम और शान्ति के उपदेश देते रहे। जो भी इनके पास आता वही अमृत लेकर जाता था।

जो जैसा करता है वह वैसा ही फल पाता है। रामेश्वर भट्ट जिन्होंने तुकाराम जी के अभंग इन्द्रायणी नदी में डुबवा दिये थे एक दिन जब इन्द्रायणी में स्नान करके निकले तो उनके शरीर में भयानक आग लग उठी। वे तड़प उठे। रात को उन्हें स्वप्न में सन्त ज्ञानेश्वर के दर्शन हुए और उनसे कहा कि सन्त तुकाराम जी की शरण में जाओ तभी तुम्हें शान्ति मिलेगी। भट्ट जी सन्त की शरण में गये और सन्त ने उन्हें अपनाकर उनका ताप दूर किया।

अब तो सन्त तुकाराम की प्रतिष्ठा चारों ओर फैल गई। बड़े बड़े ब्राह्मण उन्हें अपना गुरु बनाने में गौरव मानते थे। छत्रपति शिवाजी ने भी सन्त तुकाराम से प्रार्थना की कि वे उसे अपना शिष्य बना लें, पर तुकाराम जी ने कहा कि समर्थ गुरु रामदास जैसे सिद्ध तपस्वी जिनके गुरु हैं मैं उन्हें शिष्य कैसे बना सकता हूँ। फिर भी शिवाजी तुकाराम जी के उपदेशों में प्रायः शामिल होते रहते थे और उनके भजन कीर्तन में बड़ा आनन्द लेते थे।

सन्त तुकाराम जी के कितने ही चमत्कार प्रसिद्ध हैं। दूह के ग्राम पास लोगों में इनकी कितनी ही चमत्कारों भरी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। सम्वत् १७०६ में कृष्णा दीयज के दिन अपने चमत्कार और उपदेश छोड़ वे इस लोक से विदा हो गये। उनका मृत शरीर किसी ने नहीं देखा। कहते हैं वे सशरीर ही इस संसार से गये और बैकुण्ठ सिंघारने के वाद भी बहुत बार अपने भक्तों में आये।

दूह और लोह गाँव में सन्त के स्मारक आज भी उनकी तस्वीर उपस्थित करते हैं। पर वे तो जड़ स्मारक हैं, चेतन स्मारक तो सन्त के अभंग उपदेश हैं। उनकी अभंग वाणी जगत की अमूल्य आध्यात्मिक निधि है। आओ तनिक उनके अभंग उपदेशों का भी आनन्द ले लें :—

बस, केवल आशा तृष्णा से बिल्कुल खाली हो जाओ, तुम्हें सच्चिदानन्द की प्राप्ति हो जायेगी।

अभिमान का मुँह काला है और उसका काम अंधेरा फैलाना है।

स्वांग बनाने से भगवान् नहीं मिलते। निर्मल चित्त

की प्रेम भरी चाह नहीं तो जो कुछ भी करो अन्त में केवल आह ही मिलेगी । लोग जानते हैं, जानने पर भी अन्धे बने रहते हैं ।

वाद-बिवाद जहाँ होता है वहाँ खड़े रहोगे तो फंदे में फँसोगे । मिलो उन्हीं से जो सर्वतो भाव से हरि की शरण में हों ।

जिसका जैसा भाव होता है उसी के अनुसार ईश्वर उसके पास या दूर है एवं उसे देता लेता है ।

जहाँ उसके नाम का घोष होता है, उस स्थान में नारायण भय नहीं आने देता ।

जिसका नाम पापों को नाश करता है, जो तेज का समुद्र है, तुकाराम उसकी शरण में सर्व-भाव से है ।

पर द्रव्य और पर नारी की अभिलाषा जहाँ हुई वहीं से पतन आरम्भ हो गया ।

और ये हैं मन्त तुकाराम के कुछ दोहे:—

लोभी के चित धन बैठे, कामी के चित काम ।
 माता के चित पूत बैठे, तुका के मन राम ॥
 कहे तुका जग भूला रे, कह्या न मानत कोय ।
 हाथ पड़े जब काल के, मारत फोरत डोय ॥
 तुका मिलन तो भला जब मन सू मन मिल जाय ।
 उपर उपर माटी घसी, उनकी कौन बराय ॥

कहे तुका भला भया, हुआ सन्तन का दाम ।

क्या जानूँ कैसे मरता, न मिटती मन की आस ॥

सन्त का ईश्वर में अटल विश्वास होता है । उसकी निद्रि का साधन भगवद्भक्ति है । हमारी सन्त परम्परा में श्रद्धा भक्ति और प्रेम इच्छा ज्ञान और क्रिया के एकीकरण हैं । सन्त अपनी चित्त-वृत्तियों को लेकर अपने भगवान् की उपासना करता है । सन्त तुकाराम के जीवन का सारा नार भगवद्भक्ति मात्र है । उनकी टी वाणी में उनकी ये भावनायें बोलनी हुईं मुनिये:—

विठ्ठल का नाम संकीर्तन ही मेरा सब कुछ साधन है ।

विठ्ठल का नाम लेते ही मेरा मुँह मीठा हो गया और मुझे मुख मिला ।

मेरी दृष्टि नारायण के मुख पर मन्तुष्ट होकर फिर पीछे नहीं लौटती ।

तेरा नाम ही मेरा तप, दान, अनुष्ठान, तीर्थ, व्रत, सत्य, सुकृत, धर्म कर्म, नित्य नियम, योग, यज्ञ, जप ध्यान, ज्ञान, श्रवण, मनन, निद्रियासन, कुलाचार, कुल धर्म, आचार विचार और निर्धार है । नाम के अनिरिक्त और कोई धन मेरे पास नहीं है ।

जहाँ भी बैठें, खेलें, भोजन करें, वहाँ तुम्हारा नाम गायेंगे, राम कृष्ण नाम की माला गूथ कर गले में डालेंगे ।

तुका कहता है गोविन्द से यह अखिल काल मुकाल है ।

माता से बच्चे को यह नहीं कहना पड़ता कि तुम मुझे संभालो । माता तो स्वभाव से ही उसे अपनी छाती से लगाये रहती है । इसलिये मैं भी सोच विचार क्यों करूँ, जिसके सिर जो भार है वह तो है ही । बिना माँगे ही माँ बच्चे को खिलाती है और बच्चा कितना भी खाये खिलाने से माँ नहीं अघाती । खेल खेलने में बच्चा भूला रहे तो भी माता उसे नहीं भूलती, बरबस पकड़ कर उसे छाती से चिपटा लेती है और स्तनपान कराती है । बच्चे को कोई भी पीड़ा हो तो माता भाड़ की लाई सी विकल हो उठती है, अपनी देह की सुध भुला देती है और बच्चे पर कोई चोट नहीं आने देती । इसलिये मैं भी क्यों सोच विचार करूँ, जिसके सिर जो भार है वह तो है ही ।

लौकिक व्यवहार छोड़ने का काम नहीं, बन-बन भटकने या भस्म और दण्ड धारण करने की भी कोई आवश्यकता नहीं । कलियुग में यही उपाय है कि नाम कीर्तन करो, इसी से नारायण दर्शन देंगे ।

सन्त तुलसीदास ने भी कहा है:—

कलि में केवल नाम अधारा ।

और इस प्रकार राम नाम लेते लेते सन्त तुकाराम जी ने “राम राम बंचना” कर ली ।

“हम अपने गांव चले । हमारा राम राम बंचना । अब हमारा

तुम्हारा यही मिलना है। यहाँ से जन्म बन्धन टूट गया। अब हम पर दया रखना। तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ। कोई निज धाम को पधारते हुए 'विठ्ठल विठ्ठल' वाणी बोलो। मुख से राम कृष्ण कहो। तुकाराम बैकुण्ठ को चला।”

समर्थ गुरु सन्त रामदास

एक दिन एक साधु सङ्गम पर ब्रह्म यज्ञ कर रहे थे। उधर से एक विधवा स्त्री ने आकर उन्हें प्रणाम किया। इस पर आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा:— “अष्ट पुत्रा सौभाग्यवती भव” अर्थात् हे सौभाग्यवती ! तू आठ पुत्रों वाली हो। पर उस स्त्री का पति तो मर चुका था। वह उसी के शव के साथ सती होने जा रही थी। अतः स्त्री ने पूछा— “इस जन्म में या दूसरे जन्म में ?”

समर्थ साधु ने दृष्टि ऊपर उठाई और कहा— “शव को यहाँ ले आओ !” लाश के सामने आते ही रामदास ने श्री राम नाम लेकर उस पर तीर्थोदक जल छिड़का। जल का छिड़कना था कि मृतक “राम राम” उच्चारण करता हुआ तुरन्त उठ बैठा। इस प्रकार समर्थ सन्त की शक्ति से जो पुनर्जीवित हुए उनका नाम गिरधर पन्त था और उन की वह पत्नी सती अन्नपूर्णा बाई। जीवित होकर जब गिरधर पन्त ने समर्थ गुरु के चरण छुवे तो उन्होंने दो पुत्रों का आशीर्वाद और दिया। कालान्तर से उस ब्राह्मण दम्पति के दस पुत्र हुए और उन्होंने प्रथम पुत्र सन्त रामदास के चरणों में अर्पित कर दिया। वह समर्पित सुत उद्धव गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध है। समर्थ गुरु के और भी ऐसे कितने ही चमत्कार प्रसिद्ध हैं।

ऐसे चमत्कारी समर्थ गुरु सन्त रामदास का उदय वर्तमान

दक्षिण हैदराबाद के अन्तर्गत औरंगाबाद जिले के जाम्ब ग्राम में सम्बत् १६६५ में चैत्र शुक्ला नवमी रामनवमी के दिन हुआ था। इनकी माता का नाम रागुबाई और पिता का नाम सूर्याजी पन्त था। समर्थ गुरु का बचपन का नाम नारायण है।

बचपन में नारायण बड़े उधमी थे। पेड़ों पर चढ़ना, एक डाल से दूसरी डाल पर और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना, पर्वतों पर चढ़ना उतरना, उछलना, कूदना, फाँदना इनकी बड़ा अच्छा लगना था। ये ही इनके खेल थे। लेकिन उन्पाती होने के साथ ये चतुर भी बहुत थे। पाँच वर्ष की अवस्था में ही इनका उपनयन संस्कार हो गया था। निखना पढ़ना ब्रह्म कर्म हिमाच आदि इन्होंने बहुत शीघ्र ही सीख लिये थे। बचपन में ही ये सूर्य देव को नित्य दो हजार नमस्कार करते थे। आठ वर्ष की आयु में इन्होंने श्री हनुमान को प्रसन्न किया और श्री रामचन्द्र जी के दर्शन किये। भगवान श्री राम ने स्वयं इन्हें दीक्षा दी और इनका नाम रामदास रखा।

अब बालक नारायण श्री रामदास हो गये। रामदास का हर पग उत्थान की ओर बढ़ने लगा। इनकी भगवद्भक्ति और वैराग्य की ओर रुचि देखकर इनके माता पिता ने इनका विवाह निश्चिन्त कर दिया। जब ये बारह वर्ष के हुए तो इनके विवाह की तैयारी हुई। विवाह मंडप में बर-बधू के बीच अन्तःपट डालकर ब्राह्मण मंगल श्लोक बोलने लगे। पहले मंगलाचरण के बाद सब लोगों ने जैसे ही "शुभलग्न सावधान" कहा, वैसे ही रामदास सावधान होकर विवाह मंडप से ऐसे भागे कि बारह वर्षों तक घर वालों को फिर उनका पता ही नहीं लगा।

फेरों पर से भाग रामदास ने तैरकर गोदावरी नदी को पार किया, और फिर किनारे किनारे पैदल चल कर नासिक पंचवटी पहुँचे। पंचवटी में इन्होंने श्री रामचन्द्र जी के फिर दर्शन हुए।

राम के सामने इन्होंने एक “करुणा दर्शक” द्वारा बड़ी ही करुणापूर्ण विनय की और फिर गोदावरी व नन्दिनी के संगम के पास एक गुफा में निवास करने लगे। वहाँ इन्होंने “श्री राम राम जय जय राम” त्रयोदशाक्षर मंत्र का जाप किया। कहते हैं कि इन्होंने छः महीने तक जल में खड़े रह कर इस मन्त्र का उच्चारण किया और फिर रामायण, वेद-वेदान्त, उपनिषद, गीता, भागवत आदि ग्रन्थों का मनन किया। इस प्रकार निरन्तर जप तप और साधना के बाद जब ये अपने गाँव लौटे तो इनसे किसी ने कहा कि तुम घूमते फिरते हो और तुम्हारे घर तुम्हारी मां तुम्हारी याद में रो रो कर अन्धी हो गई है। यह सुन कर रामदास जी तुरन्त ही माता के दर्शनार्थ घर गये। द्वार पर से आवाज़ दी—“जय जय रघुवीर समर्थ”। अलख सुन कर माता भिक्षा लेकर द्वार पर आई, पर समर्थ ने कहा—“यह भिक्षा मांगने वाला कोई बैरागी नहीं है।”

मां ने आवाज़ पहचान ली और उद्विग्न होकर बोली—
“कौन ? मेरा बेटा नारायण !”

“हां माता जी ! मैं ही हूँ।”

और यह कह कर समर्थ ने माता के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। २४ वर्ष बाद माता और पुत्र का मिलन हुआ। समर्थ ने मां की आँखों पर अपना हाथ फेरा, मां की आँखों में फिर से ज्योति आ गई। इसके बाद समर्थ ने माता को कपिल की गीता सुनाई और फिर आज्ञा लेकर गोदावरी के तट पर चले गये।

एस तरह निरन्तर तपस्या, तीर्थयात्रा, परोपकार, पूजा पाठ और रामचन्द्र जी के दर्शन करने हुए उन्होंने मादुरी क्षेत्र में अपना आसन लगाया। समर्थ की श्याति दूर दूर फैल चुकी थी। उनके चमत्कारों ने बड़े बड़े सन्त प्रभावित थे। उस समय के बड़े बड़े सन्त समर्थ के उपदेशों पर चलते थे और समर्थ ने मानव तथा देश के कल्याणार्थ सन्तों का एक आदर्श पंचायतन मंडल बनाया।

अपने समय में समर्थ गुरु रामदास की चारों ओर घाक थी। साधु सन्तों के अतिरिक्त उस समय के राजा महाराजा भी इनके शिष्य थे। इतिहास प्रसिद्ध वीर शिवाजी समर्थ गुरु रामदास के बहुत ही प्रिय और आज्ञाकारी शिष्य रहे हैं।

कहते हैं कि समर्थ गुरु रामदास की सारी तपस्या का उद्देश्य देश का उद्धार था। मुस्लिम आक्रान्ताओं से वे भारत को मुक्त देखना चाहते थे। उस समय औरङ्गजेब जैसे मुस्लिम राजाओं ने हिन्दू धर्म और संस्कृति पर घोर अत्याचार कर रखे थे। भारत के कण कण में उन्होंने जंजीरें डाल दी थीं। समर्थ गुरु ने इन अत्याचारों के विरोध में शिवाजी को तैयार किया, अपनी तपस्याओं से उनमें अथक शक्ति भरी और अपनी कुशल नीति से देश को मुस्लिम आक्रमणों से सुरक्षित किया। बड़े बड़े मुस्लिम आक्रान्ताओं के दम घुटवा दिये।

मुलके हुए नीति निपुण सन्त रामदास ने स्थान स्थान पर साधुओं के मठ स्थापित किये। कहा जाता है ये मठ शिवाजी की गुप्त चौकियां थीं। यही नहीं कितनी ही गुप्त गुफाओं में साधुवेश-वारी समर्थ के शिष्य शिवाजी के निपाही थे।

समर्थ गुरु के हृदय में न जाने कौन सी शक्तिमयी चेतना थी कि उस समय के बड़े बड़े राजाओं की ताकतों ने हार मान ली। हर कदम पर उनके शिष्य शिवाजी की जीत हुई। हिन्दू संस्कृति और हिन्दू धर्म का स्वर ऊँचा हुआ। मन्दिरों में शंखों की आवाज़ सुनाई देने लगी।

चमत्कार प्रसिद्ध हैं कि समर्थ गुरु ने अपने तप बल से कितनी ही बार शिवाजी के प्राण बचाये। एक बार समर्थ गुरु एक पेड़ के नीचे बैठे थे। कहीं से घूमते हुए एक ज्योतिषी उनके पास आ बैठे। समर्थ गुरु ने एक कुंडली बना कर उनके सामने रखी और कहा “जरा इसका फल देखिये।”

ज्योतिषी ने कुंडली देखकर कहा कि जिसकी यह कुंडली है उसकी तो आज ही मृत्यु है।

समर्थ ने कुंडली उलटी करके रख दी। थोड़ी ही देर में घोड़े पर चढ़ा हुआ एक नौजवान आया और उसने समर्थ गुरु के चरण छुए। समर्थ ने आशीर्वाद स्वरूप एक मुट्टी मिट्टी उठाकर नौजवान को दी। नौजवान ने वह मिट्टी अपने पल्ले में बाँध ली और चला गया।

लगभग दो घण्टे बाद वही नौजवान लहू में लथपथ लौटा। समर्थ ने वह कुंडली फिर सीधी की और ज्योतिषी से कहा— “जरा इस कुंडली को फिर देखिये।” ज्योतिषी ने कुंडली देखते ही चौंककर कहा— “यह तो कुंडली बदल गई। महाराज, आप समर्थ हैं, भाग्य की लिपि बदल सकते हैं। मैं तो कुंडली का फल देखने वाला साधारण ज्योतिषी हूँ।”

इस प्रकार जिसकी भाष्य निगि समर्थ की शक्ति से बदल गई वह नौजवान वीर शिवाजी थे।

संक्षेप में ये हैं समर्थ गुरु के चमत्कार। उनके चरित्र से हमारे सन्त का एक नया दृष्टिकोण मिलता है, और वह यह कि जहाँ मन्त्र मानव का मानव से आध्यात्मिक सम्बन्ध जोड़ने रहे हैं वहाँ समर्थ ने मानव को राष्ट्रीय चेतना भी दी है। उन्होंने कर्मठ रत्नकर कुशल मन्त्री की तरह देश को विघ्नमियों और विदेशियों से बचाया। ये ही समर्थ गुरु रामदास शिवाजी को राज्य से भी अधिक प्रिय और जीवन से भी अधिक मूल्यवान् थे। तभी तो उन्होंने एक बार द्वार पर आये समर्थ गुरु की भोली में यह पर्चा लिख कर टांग दिया कि शिवाजी के पास जो कुत्त है वह सब गुरु को अर्पित करना है।

समर्थ के चमत्कार और चरित्र पर तो दृष्टि डाली। आगे अब तनिक उन के उपदेश भी सुन लें।

जो अखिल संसार में सदा सर्वदा, सरल, प्रिय, सत्यवादी और विवेकी होता है तथा निश्चयपूर्वक कभी मिथ्या भाषण नहीं करता वह सर्वोत्तम श्री रामचन्द्र जी का सेवक इस संसार में धन्य है।

जो दीनों पर दया करने वाला मन का कोमल, स्निग्ध, कृपाशील और रामजी के सेवक गणों की रक्षा करने वाला है, वह रामचन्द्र जी का दास संसार में धन्य है।

रे मन ! क्रोध की उत्पत्ति मत होने दे । संत मंग में बुद्धि का निवास हो । दुष्ट संग छोड़ दे, मोक्ष का अधिकारी बन ।

वासना के ही कारण सारे दुःख मिलते हैं । इस लिये जो विषय वासना त्याग देता है वही सुखी है ।

जो बिना आचरण किये ही नाना प्रकार की बात करता है परन्तु जिसका पापी मन उसे मन ही मन में धिक्कारता है, जिसके मन में कल्पनाओं की मनमानी दौड़ चलती है, ऐसे मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी ।

देह की रक्षा करने के लिये यत्न किया तो भी अन्त में काल ले ही गया । अतः मन, तू रामचन्द्र की भक्ति कर और इस संसार की चिन्ता छोड़दे ।

रे मन ! सत्संग सर्व संगों से छुड़ाने वाला है । उसे सुरन्त मोक्ष की प्राप्ति होती है । यह संग साधक को भवसागर से शीघ्र पार करता है । सत्संग दैत्य भाव का समूल नाश करता है ।

इस प्रकार सन्त परम्परा में समर्थ गुरु रामदास का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । ऐसे शक्तिसम्पन्न सन्तों के सहारे ही मानव धरा पर सुख और शान्ति से रहता है । प्राणी को प्राणी के निकट जाने में सन्त का जितना योग है उतना किसी भौतिक साधन का

नहीं। सन्त वाणी मानव कल्याण की वाणी है। धन्य है हमारा देश जिसने एक से एक महान सन्त दिये।

शान्ति चाहते ही तो मन्तों के बन्तारे हुए सन्तों पर चलो और देश को उन दुष्टों की कुटिलता से बचाओ जो हाथ में माना और बगल में छुरी रखकर भारत माना की सदन काटने हैं।

समर्थ गुरु सन्त रामदान का सामर्थ्य सन्तों का वह श्रोज है जिसमें ज्वाला भी है और शान्ति भी, जिसके लोभ में तराम भी है और जोड़ने की ताकत भी। समर्थ बनो, यह हमारी संस्कृति और समर्थ सन्त का सन्देश है।

सन्त गांधी

भारतीय सन्त परम्परा के अन्तर्गत इस युग में जो भारतीय सन्त हुए, उनमें महात्मा गांधी विश्व के सन्तों में सबसे महान है। गांधी जी न हठयोगी थे, न सिद्ध साधु थे, न भक्त और न कवि थे। पर वे क्या नहीं थे? उनमें वे सब गुण थे जो योगी में होते हैं, जो सिद्ध साधु में होते हैं, जो भक्त और कवि में होते हैं, और अधिक क्या जो अवतार में हो सकते हैं। गांधी जी में कोटि कोटि चमत्कार थे। उनका जीवन वर्णनातीत है, उनकी ज्योति सर्वत्र है।

गांधी जी जिन परिस्थितियों में आये वे परिस्थितियाँ बड़ी ही विषम एवं संकटाकीर्ण थीं। देश दासता की जंजीरों में जकड़ा पड़ा था, भारत अंग्रेजों की गुलामी में हर ओर से सड़ा जा रहा था। न धर्म था न कर्म, न संस्कृति थी न शान्ति, न अपनी शिक्षा थी न भाषा, न शुद्ध खाना था न शुद्ध पानी। देश नंगा, भूखा, कंकाल और कगाल होकर भटक रहा था। भारत भूमि घुटनों में मुँह ढक कर रो रही थी। मनुष्य मनुष्य के रक्त में स्नान कर मजहब और धर्म की दुहाई दे रहा था। रक्तरंजित मेदिनी पर मानव की विभीषिका पिशाच के नंगे नृत्य से वीभत्स होने लगी थी। सारे संसार में हिंसा की मनमानी चल रही थी। बमों, तोपों, विषैली गैसों की धाँय धाँय से ज़मीन कँपा कँपा कर फाड़ी जा रही थी। इंसान खूखार भेड़ियों की तरह दौन फाड़ फाड़ कर चल रहे थे। ऐसे घोर काल

में सत्य, शान्ति और नैतिकता के अग्रदूत सन्त महात्मा गांधी अवतीर्ण हुए।

महात्मा जी का पूरा नाम मोहनदास करमचन्द गांधी है। इनकी माता का नाम पुतली बाई और पिता का नाम करमचन्द है। इनकी जन्मभूमि मुदामापुरी अथवा पोरबन्दर है। शिक्षा राजकोट में आरम्भ हुई। गांधी जी की जन्मतिथि आश्विन कृष्ण १२ सम्बत् १९०५ अर्थात् ० अक्टूबर १८६९ ईस्वी है।

गांधी जी का बचपन मुदामापुरी में कुछ चलता रहा, पर पूरा बचपन राजकोट में ही बीता। वही इनकी शिक्षा चर्चा। बचपन में गांधी जी बड़े भेड़ू और सीधे थे। उनका उम्र लभ्य का जीवन देख कर क्या कोई कह सकता था कि गांधी जी एक दिन विश्व के सबसे महान मानव होंगे।

जब हम उनके बाल्यकाल की आलोचना करते हैं तो हम यह भी सकते हैं कि "होनहार विरवान के होन चौकने पात।" क्योंकि गांधी जी बचपन से ही शान्त और सच्च रहते हैं। उनमें सबसे बड़ा गुण यह था कि वे अपनी दुर्बलताओं को पहचानते थे और उन्हें छोड़ने की उनमें लगन थी। वे बड़े दूढ़ थे। जो दुर्गई उन्होंने एक बार त्याग दी फिर वह बुराई उन्हें जीवन भर न पकड़ सकी। तभी तो गांधी जी सभी माननीय दुर्बलताओं को छोड़ कर एक दिन सन्तों में सर्वोच्च आसन पर विराजमान हो गये।

भारत में दसवीं कक्षा तक पढ़ कर गांधी जी विलायत चले गये। वहाँ उन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति का पालन किया। न उन्होंने मांस खाया, न शराब पी और न अन्य कोई मधर्म

किया। त्रिलायन में धर्मपूर्वक पढ़ कर वे बैरिस्टर हो गये, और फिर अपने देश के दर्शन कर वकालत के लिये दक्षिण अफ्रीका चले गये। अफ्रीका में गांधी जी ने आदर्श वकालत की और वहीं पर उन्होंने "नेशनल कांग्रेस" का संगठन किया।

वम फिर तो गांधी जी का लोक जीवन क्षण प्रति क्षण प्रगति करने लगा। उन्होंने जीवन में बड़े बड़े काम किये जिनसे आदर्श कायम हुए हैं। उन्होंने 'बोअर युद्ध' में अंग्रेजों की सहायता की, भारत में आकर कांग्रेस का संगठन दृढ़ किया, उसमें नवीन क्रान्तिकारी परिवर्तन कराये, तथा स्वतन्त्रता संग्राम के लिये अहिंसा की मंत्राल आयात बुन्द की, जागृति का शंख बजाया। कण कण में उनका स्वर गूँज उठा। 'इण्डियन ओपीनियन, नवजीवन, यंग इण्डिया, हरिजन' जैसे अखबार निकाल कर वे सोते हुए देश को जगाते चले गये।

वे संसार के हर छोटे और बड़े सद्कार्य के लिये स्थान स्थान पर घूमे। उन्होंने मानव कल्याण के लिये गाँव गाँव में भ्रमण किया। समाज की हर दुपिन हवा को वे शंकर के विषपान की तरह पी गये। उन्होंने जीवन में कितने ही महान काम किये पर सबसे महान भारत को स्वतन्त्रता दिलाने का किया, क्योंकि देश की मुक्ति में ही हमारी शान्ति, संस्कृति, और उन्नति व्याप्त है।

वैने तो गांधी जी के कामों की तालिका अपरिमित है पर कुछ श्रेष्ठ कार्यों की जिनमें सत्संग होता है अवश्य चर्चा करेंगे। क्योंकि सद्कार्यों का कहना और मुनना ही साधु संग है। यह हर्ष की बात है कि गाँधी-बाणी का सत्संग अन्य सन्तों से कुछ अनोखा है, और उपयोगी है। सन्त गांधी जी की विशेषतायें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

दुनिया में जो हमारे के आश्रित है वह कभी मुझी नहीं रह सकता। 'पराधीन मपनेहु सुख नाही'। स्वतन्त्र वह है जो स्वाश्रित है। जो व्यक्ति, जो देश विदेशी माल पर जीवन चलाता है वह दास है। गाँधी जी ने विदेशी माल के बहिष्कार में रचनात्मक आन्दोलन चलाया और कहा :—

“अपने देश में अपने ही हाथ से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करो। खादी तैयार करो और खादी ही पहनो। जो दूसरे देश की वस्तुओं पर आश्रित है वे गुलाम है। जो अपने देश की वस्तुओं को छोड़ कर दूसरे देशों की वस्तुओं का उपयोग करते हैं वे दास हैं। स्वतन्त्रता का सबसे बड़ा धर्म स्वावलम्बन है। स्वतन्त्र देश वही है जो स्वावलम्बी है।”

गाँधी जी भक्त थे, लोकनाथक थे और कर्मयोगी थे। उनकी भक्ति ईश्वर में थी। पर उन्होंने खड़नाल बजा कर अपने भगवान् के सामने कभी नृत्य नहीं किया। उनके कीर्तन भजन भक्ति और अर्चन में वह विशेषता रही है जो प्रायः अन्य मन्तों में नहीं रही। उन्होंने ईश्वर के मृत्यु-स्वरूप की धारणा उतारी। उन्होंने कहा भी है “मैं उमी ईश्वर का पुजारी हूँ जो मृत्यु-स्वरूप है। मृत्यु नित्य सनातन और अपरिवर्तनशील ईश्वर है।”

सन्त वह है जो न काम का चेला है, न उसे क्रोध आता है, न वह मोह में फँसता है, न वह मदान्ध होता है, न उसे लोभ बूढ़ता है। वह केवल सत्य का प्याग होता है।

सन्त का सबसे बड़ा गुण सत्यवादी होता है। जो सत्य पर टिका हुआ है वह शाश्वत है। सत्य की अनुभूति कर सत्य के

मम्बन्ध में गाँधी जी ने बहुत कुछ बताया है। उनकी वाणी का कुछ मन्थामृत हम आपको पान कराते हैं :—

“सत्य ही ईश्वर है। पृथ्वी सत्य के बल पर टिकी हुई है। सत्य है और असत्य नहीं है। जो सत्य को जानता है वह ईश्वर को पहचानता है। सत्य कहना और करना मनुष्य का धर्म है। सत्याचारी को कोई धोखा नहीं दे सकता। संसार में कठिन से कठिन व्रत सत्य का है।

निर्मल अन्नकरण की जिस समय जो प्रतीत हो वही सत्य है। सत्य से प्रेम मिलता है, मृदुता मिलती है। जिसके पास सत्य धन है वह स्वावलम्बी है।

जो मनुष्य अपनी जिह्वा को नियंत्रण में नहीं रख सकता उसमें सत्य का अधिष्ठान नहीं है। सत्यवादी कठोर वचन कभी नहीं बोलता। सत्य में दूसरे को बश में करने की शक्ति है। सत्य पुरुष दुर्बल के लिए भगवान है।

सत्य एक कल्प वृक्ष है जिससे सब कालों में फल और छाया प्राप्त होती है। सत्य में अमर फल है। सत्य के समुद्र में जितने गहरे खुसेंगे उतने ही अमूल्य रत्न मिलेंगे।

शुद्ध सत्य राग द्वेषादि छोड़कर ही प्राप्त होता है। सत्य में ही शान्ति है, ज्ञान है, अहिंसा है। सत्य जीवन की सफलता का सबसे बड़ा पुरस्कार है।

सत्य धर्म और हिन्दू धर्म एक ही वस्तु के दो नाम हैं।

मनुष्य का मोहरहित शुद्ध स्वरूप ही सत्यनारायण है । सत्य प्रत्यक्ष परमात्मा है ।”

गांधी जी धर्म प्रधान महापुरुष थे । उनका धर्म उनके ही शब्दों में “सत्य मेरा सर्वोत्तम धर्म है ।” उन्होंने कहा :—

“आप मेरी जिन्दगी को गौर से देखिये । मैं कैसे रहता हूँ, कैसे खाता हूँ, कैसे बैठता हूँ, कैसे बातचीत करना हूँ, मेरा बर्ताव कैसा है, इन सब को मिलाकर जो छाप आप पर पड़े वही मेरा धर्म है । धर्म तो उत्कट श्रद्धा का नाम है । धर्म के निचोड़ का ही दूसरा नाम अहिंसा है । उसमें वह ताकत है कि अंग्रेज के हाथ से उसकी तलवार गिर जाये, मुसलमानों का गुण्डापन धरा रह जाये । अहिंसा शक्ति-सम्पन्न धर्म है ।

विविध धर्म एक दूसरे के पूरक हैं । मेरा हिन्दू धर्म सर्व व्यापक है । उसमें न तो किसी धर्म के प्रति द्वेष है, न अवगणना । सारे धर्म एक दूसरे के साथ आतप्रोत हैं । सत्य और अहिंसा में सारे धर्म समाये हुए हैं ।

हिन्दू धर्म व्यापक और विकासवान है । हिन्दू धर्म जीवित धर्म है । ब्राह्मण धर्म हिन्दू धर्म का दूसरा नाम है । हिन्दू धर्म ने हमें भय से बचा लिया । अगर हिन्दू धर्म मेरे सहारे को न आता तो मेरे लिये आत्महत्या के सिवाय और कोई चारा नहीं होता । मैं हिन्दू इसलिये हूँ कि

हिन्दू धर्म ही वह चीज है जो संसार को रहने लायक बनाती है। हिन्दू धर्म की प्रतिष्ठा सत्य और अहिंसा पर निर्भर है। अहिंसा सत्य की बुनियाद है, अहिंसा हृदय का सर्वोत्तम गुण है, अहिंसा पूर्ण निर्दोष है।”

गांधी जी ईश्वर में उन सब आदर्शों के दीपक देखते हैं जो प्राणी मात्र को कल्याण का पथ दिखाते हैं। सत्य उनके आदर्शों का उद्गम है। अहिंसा, ईश्वर, प्रार्थना, चरखा, खादी, गाँव, देश, विश्व एकता, राज्य, सेवा, गोरक्षा, शिक्षा, प्रेम, विश्वास सभी में उनका सत्य मुखर है। गांधी जी के दर्शन यदि आपको करते हैं तो उन आदर्शों और सिद्धांतों में कर लें जिन पर चलते हुए वे चले गये। आइये, हम आपको गांधी जी के कुछ चित्र उनकी ही वाणी में दिखायें।

अहिंसा इस युग की नयी शक्ति है। अहिंसा में मानवता की विजय है और हिंसा में दानवता की। अहिंसा के द्वारा ही गांधी जी की जय मिली। अहिंसा के सम्बन्ध में गांधी जी ने कहा:—

“पूर्ण अहिंसा का अर्थ है प्राणी मात्र के प्रति दुर्भाव का पूर्ण अभाव। अहिंसा एक महाव्रत है। यह व्रत तलवार की धार पर चलने से भी कठिन है। अहिंसा में प्रेम की पराकाष्ठा है। हमारे केलिये प्राणार्पण करना प्रेम की पराकाष्ठा है और उसका शास्त्रीय नाम अहिंसा है। यों भी कह सकते हैं कि अहिंसा ही सेवा है। अहिंसा डरपोक से दूर भागती है और वीर पुरुष की शोभा है। अहिंसा सबसे

बड़ी शक्ति है। पूर्ण अहिंसक पूर्ण शक्तिमान है। हिंसा करने वाले जड़वत् होते हैं, और अहिंसक चेतन। अहिंसा जीवन का धर्म है। अहिंसक संयम और सत्य का रूप है। गुड अहिंसक ही लोकनायक है।”

ईश्वर में गांधी जी का पूर्ण विश्वास था। ईश्वर ही उनका आधार था। उस सर्वव्यापक की आराधना उनके ही शब्दों में मुनिये:—

“ईश्वर निश्चय ही एक है। वह अगम अमीश्वर और मानव जाति के बहुजन समाज के लिये अज्ञात है। वह सर्वव्यापी है। ईश्वर न ‘काबा’ में है, न ‘काशी’ में, वह तो घर घर में व्याप्त है, हर दिल में मौजूद है। हर काम करते समय जिनके हृदय में राम है वे हर काम करने समय राम नाम जपते ही रहते हैं। मेरे पास एक राम नाम के सिवा और कोई ताकत नहीं है। प्रार्थना या भजन जीभ से नहीं, हृदय से होता है। इसी से गूने, नृत्य, मूढ़ भी प्रार्थना कर सकते हैं। जीभ में अमृत और हृदय में हलाहल हो तो जीभ का अमृत किस काम का! हृदय की पहचान ही सत्य की पहचान है। ईश्वर का नाम लेने के लिये इन्सान को ईश्वरमय होना चाहिये।”

भारत शहरों में नहीं, ग्रामों में है। हमारी रिद्धि सिद्धि और समृद्धि गांवों में है। इसीलिये तो गांधी जी ने जाग कर गांधी को जगाया। उन्होंने कहा:—

गांव को आबाद करो और अपने खोये हुए सौभाग्य को पुनः प्राप्त करो। देहाती जीवन में तो बहुत कुछ खूबसूरती भरी है, यहाँ बहुत कला भरी है, अनेकों उद्योग पड़े हैं।

चर्खा गरीबों का धन है। भारत में छोटे छोटे उद्योग धन्धों का मूल चरखे से ही है। तभी तो गांधी जी ने चारों ओर चर्खा ही दैव्यतं हुए कहा:—

मुझे सब बातों में चरखा दिखाई देता है, क्योंकि मैं चारों ओर निर्धनता और दरिद्रता ही देखता हूँ। हिन्दुस्तान के नर-कंकालों की जब तक अन्न वस्त्र न मिले तब तक उनके लिये धर्म नाम की कोई चीज ही दुनिया में नहीं। चरखा हमारे प्रायश्चित्त का साधन है। चरखा, माला और राम नाम एक ही है। चरखा तो लंगड़े की लाठी है। निर्धन स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा करने वाला किला है। स्वराज्य के समान ही खादी भी राष्ट्रीय जीवन के लिये श्वास के जिननी ही आवश्यक है। सामान्य अर्थशास्त्र की रचना प्रतिस्पर्धा के तथ्य पर हुई है और उसमें स्वदेश प्रेम, भावना और मानवता का बहुत थोड़ा भाग रहता है, जब कि खादी के अर्थशास्त्र की रचना स्वदेश प्रेम, भावना और मानवता के तत्त्व पर हुई है।”

साम्प्रदायिकता इस युग की सबसे अधिक विषाक्त समस्या है। एकता के लिये गांधी जी ने अपने प्राण तक दे दिये। हिन्दू मुस्लिम एकता के लिये वे जीवन भर संघर्ष करते रहे। उन्होंने कहा—

“भारतवर्ष एक पक्षी है। हिन्दू और मुसलमान उनके दो पंख हैं। आज ये दोनों पंख अपंग हो गये हैं और पक्षी आसमान में उड़कर स्वतन्त्रता की आराध्यप्रद और पुष्ट हवा लेने से असमर्थ है। अहिंसा की दृष्टि से चाहे स्वराज्य हो या न हो, हिन्दू मुस्लिम एकता तो होनी ही है। मेरे पास तो स्वराज्य प्राप्त करने का और हिन्दू मुस्लिम एकता का एक ही इलाज है, वह है सत्याग्रह।”

गांधी जी की दृष्टि हर उस कोने तक गई जहाँ अन्धकार न्याय के उजाले को डस रहा था। हर कुर्बान पर गांधी जी ने प्रकाश डाला। वे समता और मानवता के दिनमान बन कर अन्धकार को उजाले में बदलते चले गये। वे राष्ट्रीय, सामाजिक और धार्मिक क्रान्ति के अग्रदूत सन्त हुए हैं। उन्होंने हर समस्या के सम्बन्ध में प्रकाशपूर्ण शब्द कहे हैं। अछूतोंद्वारा के सम्बन्ध में उन्होंने कहा—

मैं अछूत प्रथा को हिन्दू समाज का सबसे बड़ा कलक मानता हूँ।

सेवा के बारे में उनके विचार हैं—

जो सेवक है उन्हें तो काम करना है। काम किया, अत्म हुआ, भूल गये।

गोरक्षा के लिये उनकी अमृत-वाणी सुनिये—

संसार में केवल ऐसी दो ही वस्तुएँ हैं जिनके कारण मुझे तर चोला धारण करने का लोभ होता है, और वे हैं—
अछूतोंद्वारा तथा गोरक्षा।

शिक्षा के सम्बन्ध में उनके भाव देखिये—

पहला पाठ जो हमें सीखना चाहिये वह है खुद की मदद और स्वाश्रय। जो अपने आपको मदद देने को तैयार होता है, उसी को ईश्वर मदद देता है। विद्यालय ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ कोई भी अपवित्र बात नहीं होनी चाहिये। विद्यालय चरित्र निर्माण के कारखाने हैं।

वेधव्य के बारे में वे बोले—

मेरा यह दृढ़ मत है कि दुनिया में बाल विधवा जैसी कोई प्रकृति-विरुद्ध वस्तु नहीं है।

वेश्या वृत्ति मानव समाज के लिये एक बड़ा कलंक है। गाँधी जी ने इस पाप को पहचानते हुए कहा—

वेश्या वृत्ति एक महा भीषण और बढ़ते जाने वाला रोग है।

हम देखते हैं कि हमारे समाज में लड़की माँ बाप के सिर पर बोझ बनी है। यदि हम दहेज प्रथा को मिटा दें तो माँ बाप को कन्या का जन्म न अक्षरे। विवाह तो प्रेम का नाता है, कोई सौदा नहीं। तभी तो बापू ने कहा—

पैसे के लालच से क्रिया गया विवाह, विवाह नहीं एक नीच सौदा है।

प्रेम और विश्वास मानव का प्रकाश है। जहाँ प्रेम है वहीं आनन्द है। पर आज तो हम रसहीन होने लगे हैं। प्रेम के बिना

जीवन में धरा ही क्या है ? जिसके पास प्रेम है उसके पास क्या नहीं है ! गांधी जी जीवन भर कहते रहे—

हृदय में युद्ध प्रेम ही जाय तो और सब तो उनके साथ साथ अपने आप आ जाता है। मेरा पुनर्जन्म में विश्वास है और मैं इसी आशा में जीता हूँ कि इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में मैं अपने प्रेम-पूर्ण आलिंगन में सारी मानवता को गले लगा लूंगा। विश्वास हमें तूफान के पार ले जाता है।

अभावों में प्रसन्न रहने का अर्थ सन्तोष नहीं है। पर यदि जीवन की आवश्यकताएँ पूर्ण होने पर भी किसी में चाह शेष है तो वह सदा दुखी है। कर्तव्य कर्मके जो कुछ हक से मिल जाये वही सुख देता है। इसीलिये गांधी जी समझाते रहे—

यदि सब लोग अपनी आवश्यकता भर को ही संग्रह करें तो किसी को भी तंगी न हो और सभी को सन्तोष हो।

जो कुछ गांधी जी ने ऊपर कहा है वह केवल कथन नहीं है अपितु उनके प्रयोग हैं, उनके जीवन के सत्य हैं, उनकी कर्मठ चिन्दगी के आदर्श हैं। उनके आदर्श असंख्य और अप्रमेय हैं। गांधी जी के अथाह जीवन की थाह पाना ऐसे ही कठिन है जैसे उस अपरम्पार का पार नहीं मिलता। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि वे एक कर्मयोगी सन्त हुए हैं। उनकी विशेषताएँ मौलिक, महान और अपरम्पार हैं। सृष्टि का कोई ऐसा उज्ज्वल पक्ष नहीं जो

गाँधी जी से और उज्ज्वल न हुआ हो। क्या समाज, क्या धर्म, क्या राष्ट्र, क्या कला, क्या दर्शन, क्या विज्ञान, क्या ज़मीन, क्या आसमान सभी पर गाँधी जी के चरण चिह्न हैं।

यह खूबी सन्त गाँधी जी की ही है कि उन्होंने आध्यात्मिक तत्त्वों को व्यावहारिक जगत से ला मिलाया और अस्तित्वहीन को तत्त्वपूर्ण कर दिया।

गाँधी जी में चमत्कार थे, अद्भुत चमत्कार। जिससे उनकी आँखें मिलती थीं वह उनका हो जाता था। वे जिस मिट्टी पर चलते थे वह मिट्टी सोना उगलने लगती थी। एक बार की बात है कि गाँधी जी एक गाँव में गये और ग्राम के किनारे एक खेत में भोंपड़ी पर ठहरे। वहाँ उनसे गाँव के दस पाँच सज्जन मिलने आये। उस समय वे इतने प्रसिद्ध तो थे नहीं कि सारा गाँव उनके आते ही दर्शनों को चला आता।

पर शाम को गाँधी जी ने देखा कि गाँव भर के स्त्री पुरुष गाते बजाते और नाचते चले आ रहे हैं। वे आते ही गाँधी जी के चरणों पर गिर कर उनकी जय जय गाने लगे। गाँधी जी ने उन्हें बड़ी कठिनता से पैर छूने से रोक कर पूछा— “भाइयो, बात क्या है ?”

गाँव वाले जय घोष करते हुए बोले— “आप तो अन्तर्यामी है, सब जानते हैं। आज हमारे गाँव में भगवान् आ गये, उनके आने से वह कुआ जो बारह वर्ष से सूखा पड़ा था और जिसमें हजार यत्न करने पर भी जल नहीं आया, आज आपके चरण आते ही पानी से भर गया, और पानी इतना ठण्डा तथा मीठा है जैसे केवड़े का शर्बत।”

गाँधी जी ने कहा— “यह तो ईश्वर की दया है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं यह जानता भी नहीं कि कुछा सुखा है या भर गया। यह तो सब उम प्रभु की माया है।”

गाँधी जी के ऐसे किन्ने ही चमत्कार हैं जो वे ही जानते हैं जो उनके हर समय साथ रहने वाले परम भक्त रहे हैं। और आज तो हमारे सामने गाँधी जी के वे चमत्कार हैं ही जो किसी बिरके सन्त के ही हो सकते हैं। उन्होंने विमान और हिमा के उम और काल में जिसमें ‘हिटलर’ ‘मुसोलिनी’ और ‘तोर्जो’ जैसी शक्ति वाले देश मिट गये भारतवर्ष को गुलामी से छुड़ाया। हिन्दुस्तान की आजादी गाँधी जी के चरणों के प्रताप से ही मिली।

आज जो भारत विश्व की शान्ति का सन्देश दे रहा है और पुनः विश्वगुरु का स्थान प्राप्त करना जा रहा है वह सब सन्त गाँधी जी की तपस्याओं का ही फल है। गाँधीवाद ही दुनिया के लिये वह उजाला है जो जिवम् है।

यह ध्रुव है कि सन्त और ऋषियों में गाँधी जी का स्थान अद्वितीय है। यदि मनुष्य उनके आदर्शों पर चले तो वह वैश्व का प्राप्त हो सकता है। गाँधी जी इतने व्यापक हो चुके हैं कि हर कण से उनकी आवाज गूँजती है।

प्रेम, अहिंसा, सत्य और शान्ति के अवतार सन्त बापू की महिमा अगम और अगोचर है। वे केवल भारत के नहीं, सारी धरती के नहीं, अपितु सारे ब्रह्माण्ड के सन्त हैं। उनका सुयश सूर्य और चन्द्रमा की ज्योति की तरह सर्वत्र परिक्रमा करता है।

अधिक क्या, गाँधी जी सन्तों में सन्तों के सन्त हैं, राजनीतिज्ञों

में सर्वश्रेष्ठ नीतिज्ञ है, व्यापियों में महान व्यापी है, पण्डितों में महापण्डित है, और शहीदों में शहीदों के शहीद है। वे प्रकाश से आये थे और प्रकाश में विलीन हो गये।